



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 21—अक्टूबर 27, 2006 (आश्विन 29, 1928)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2006 (ASVINA 29, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. ए.-22012/1/2006-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, श्री आशीष गुप्ता, भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश : 1989) को सरकार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद से स्थानांतरण पर दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से लेकर उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 23 जुलाई, 2009 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. ए.-22012/1/2006-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, श्री श्याम सरन, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त) को दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 से लेकर भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधी बातचीत पूरी होने

तक भारत सरकार के सचिव के रैंक एवं वेतन में प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष दूत के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. आर.एस. 3 (viii)/2006/71-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकार श्री चौधरी रामाकांत दास को 1 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में मुख्य संसदीय भाषांतरकार के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आर.एस. 3 (viii)/2006/72-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार

श्री के. एस. सोमशेखर को 1 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकार के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री जोय मैथ्यू को, जिन्हें पहले अधिसूचना सं. आर.एस./3 (viii)/2005/39-कार्मिक, दिनांक 5 जुलाई, 2005 द्वारा तदर्थ आधार पर वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकार के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, अब 1 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 सितम्बर 2006

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन./5729/ए.एन.-I--श्रीमती भारती त्रिपाठी को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विदेश मामलों संबंधी समिति के सभापति (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय) के निजी स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 5 अगस्त, 2006 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती भारती त्रिपाठी की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवा अवधि के आधार पर और विदेश मामलों संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम विदेश मामलों संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

सं. ए.-38012/4/2006-प्रशा. I--श्री धर्म सिंह ठाकुर, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने 9 सितम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

राम सिंह यादव, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. एफ. 6(1949)/2005-प्रशासन-1--अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर, श्री आर. सी. गुप्ता, सी. एस. एस., अवर सचिव (तदर्थ), योजना आयोग, सरकारी सेवा से दिनांक 30.09.2006 के अपराह्न से सेवा निवृत्त होते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. एफ. 6 (1959)/2006-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 4.1.2006 के अधिसूचना सं. ए.-12025/17/2004-प्रशासन-1 के अनुक्रम

में यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री एस. के. साहा, आई.आर.एस. ई.ई. (90) द्वारा धारित उप सलाहकार के पद को दिनांक 29.09.2006 से उनके लिए वैयक्तिक रूप से निदेशक का पदनाम दिया जाता है। उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि अब दिनांक 2.1.2006 से पांच वर्षों के लिए होगी तथा इस पदनाम के बाद, उनकी निदेशक के रूप में सेवाकाल शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 01.01.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

सं. 181/3/2006 (युप-ख)--सक्षम प्राधिकारी, एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में कार्यरत कु. पुष्पा नि. लाकड़ा (अ. ज. जा.) को, जो स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं, को 01.10.2006 से प्रभावी और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. आगे उपर्युक्त नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस समय लम्बित सी.डब्ल्यू.पी. सं. 8225-43/2003 श्री तपन दत्ता तथा अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के अन्तिम निर्णय के अधीन है।

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 अक्टूबर 2006

सं. I-18011/10/2006-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से स्थायी करते हैं :--

क्रम. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
सं.	
1. श्री नितिन दीप बलागन, आई.पी.एस. (राजस्थान : 2003)	01.09.2005
2. श्री हिंगलाजदन, आई.पी.एस. (राजस्थान : 2003)	05.09.2005

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

दिनांक 6 अक्टूबर 2006

सं. आई.-14011/5/2006-आई.पी.एस.-I (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 27.09.2006 को चयन समिति की दिनांक 14.07.2006 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2006 की उस चयन सूची को अनुमोदित

कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग में वर्ष 2006 में तीन भौतिक-रिक्तियों को भरे जाने हेतु जम्मू एवं कश्मीर पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची-2006

क्रम. अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री बशीर अहमद यट्टू	01.04.1957
2. श्री इसरार अहमद खान	17.11.1953
3. श्री निसार अहमद	25.06.1957

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई.-14011/5/2006-आई.पी.एस.-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूची-2006

क्रम. अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री बशीर अहमद यट्टू	01.04.1957
2. श्री इसरार अहमद खान	17.11.1953
3. श्री निसार अहमद	25.06.1957

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2006

सं. आई.-14011/20/2006-आई.पी.एस.-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 27.09.2006 को चयन समिति की दिनांक 10.07.2006 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2006 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग में वर्ष 2006 में एक मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु कर्नाटक राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची-2006

क्रम. अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री एन. शिवाप्रसाद (अ. ज.)	15.05.1958

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई.-14011/20/2006-आई.पी.एस.-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उसे भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत कर्नाटक संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

चयन सूची-2006

क्रम. अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री एन. शिवाप्रसाद	15.05.1958

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

सं. 20/जी/2809-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री प्रभांशु कमल, भा. प्र. से. (मध्य प्रदेश-85) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 29 सितम्बर 2006 के अपराह्न से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

सं. I-14012/20/2006-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 में अर्हता प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग के 2005 बैच के भा. पु. सेवा के परिवीक्षार्थी श्री रणदीप डी. के सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर, भारतीय पुलिस सेवा से उनका तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 26 अगस्त, 2006 अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

ए. के. यादव, निदेशक (पुलिस)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 अगस्त 2006

सं. 2/16/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्रीमती सुषमा सिंह भा. प्र. से. (झा. : 72) को 03.08.2006 (अपराह्न) से 26,000/- रुपये (नियत) के वेतनमान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार नय्यर, उप सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2006

सं. 14/19/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री एच. चिनजासोन को 27 जुलाई, 2006 (अपराह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान

में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार नय्यर, उपसचिव (प्रशा.)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 6 सितम्बर 2006

सं. 13019/5/2006-अकादमी (डैस्क)--राष्ट्रपति, डॉ. बी. अशोक, भा.प्र. से. (के. एल. : 98) को 3.7.2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 10,650-325-15,850/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (अवर सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

माया प्रकाश, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. 05/पी.बी.-I/2006--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय विदेश सेवा (ख) के समन्वित ग्रेड II और III के अधिकारी श्री राजिन्द्र कुमार ने 31.08.2006 को अपना पदभार त्याग दिया।

जलधि मुखर्जी
प्रशासनिक अधिकारी (पी. बी. I और III)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. 04/पी. बी.-III/2006--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग, ग्रेड-I के निम्नलिखित अधिकारियों की मंत्रालय के का. ज्ञा. सं. क्यू./सी.ए.डी./584/11/2004, दिनांक 31 अगस्त, 2006 के अनुसार उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखों से भा. वि. से. (ख) के आशुलिपिक संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख सं.
1. श्री इन्द्रजीत सिंह	21.08.2006
2. श्री अनिल कुमार गुप्ता	21.08.2006
3. श्री चन्द्र प्रकाश-I	21.08.2006
4. श्री विजय कुमार मेहता	21.08.2006
5. श्री टी. भास्करन	21.08.2006
6. श्री बी. आर. केशव प्रसाद	30.08.2006
7. सुश्री के. रत्न प्रभा	23.08.2006
8. श्री टी. एन. बी. राघवन	21.08.2006

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने 21.08.2006 से तथा श्री बी. आर. केशव प्रसाद और सुश्री के. रत्न प्रभा ने क्रमशः 30.08.2006 और 23.08.2006 से प्रधान निजी सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया।

कुणाल रॉय, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.)

कार्यालय : प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. डी. III/460/सी.एफ.-23/2000--भारत के राष्ट्रपति ने श्री महेन्द्र के. सांघी की मुम्बई में पुर्तगाल गणराज्य के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री महेन्द्र के. सांघी के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा।

शाम के. मुडगिल
प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

सं. डी. III/460/सी.एफ.-33/2006--भारत के राष्ट्रपति ने श्री अशिष साराफ की नई दिल्ली में बाहामस राष्ट्रमंडल के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अशिष साराफ के कौंसली क्षेत्राधिकार में होगा : दिल्ली।

शाम के. मुडगिल
प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-12026/1/2005-डी.आर.टी.--केन्द्रीय सरकार, सुश्री आर. उषा, अवर सचिव, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, को 4 मई, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण-II, चैन्नई, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-12026/1/2005-डी.आर.टी.--केन्द्रीय सरकार, श्री डी. सी. जैन, अनुभाग अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर को 25 मई, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. ए-12026/3/2005-डी.आर.टी.--केन्द्रीय सरकार, श्री वी. एलीशा, उप निदेशक, रक्षा मंत्रालय, को 16 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर,

वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए.-12026/3/2005-डी.आर.टी.--केन्द्रीय सरकार, श्री सुरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल, को 30 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए.-12026/3/2005-डी.आर.टी.--केन्द्रीय सरकार, श्रीमती मालती नारायणन, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग, को 4 जुलाई, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2006

सं. ए.-12026/1/2005-डी.आर.टी.--केन्द्रीय सरकार, श्री जे. एल. गर्ग, उप लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली, को 01 मई, 2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण-II, चण्डीगढ़, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2006

सं. 13/6/2002-डी.आर.टी.-- श्री टी. रवि शंकर, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, का त्याग पत्र स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 8 अगस्त, 2006 (अपराह्न) से पीठासीन अधिकारी का पदभार तयाग दिया है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 04 सितम्बर 2006

सं. 13/2/2004-डी.आर.टी.--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण और जन हित में, एतद्वारा, श्रीमती मीना वी. गोम्बर, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक, अपने कार्यभार के साथ-साथ, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली, का भी कार्यभार संभालने के लिये प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. 18/4/2004-डी.आर.टी.--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण और जन हित में, एतद्वारा, श्री ए. के. त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, चण्डीगढ़ को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक, डी.आर.टी. की चण्डीगढ़ स्थित दो पीठों से संबंधित अपने कार्यभार के साथ-साथ, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर का भी कार्यभार संभालने के लिये प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. ए.-32014/1/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को और आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री आर. एस. गुलियानी
2. सुश्री शशि कला
3. सुश्री कुसुम
4. श्री सतिन्दर कुमार
5. श्री अशोक अग्रवाल

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद पर उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति को और आगे बढ़ाना पूर्णतः तदर्थ है और इससे उन्हें नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा उनके द्वारा इस ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु, गणना नहीं की जाएगी।

एस. पी. सिंह, अवर सचिव

सं. ए.-19011/255/2005-स्था.--राष्ट्रपति, श्री डी. पी. सेहरावत, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, की तदर्थ नियुक्ति को, छः महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए 31.12.2006 तक अथवा नियमित वरिष्ठ

प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. पहले से लागू अन्य निबंधन एवम् शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव -

सं. ए-32014/1/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री जे. के. प्रोवर, सहायक, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, वित्त मंत्रालय संवर्ग, को 21.09.2006 से और 31.12.2006 तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन, पूर्णतः तदर्थ आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

(क) चूंकि तदर्थ नियुक्ति एक कामचलाऊ व्यवस्था है, इससे उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) तदर्थ नियुक्ति, वरिष्ठता कोटे और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीएसई) के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक अथवा अगला आदेश होने तक, जारी रहेगी। तदर्थ नियुक्त अधिकारी के, उपर्युक्त दोनों वर्गों में से किसी में नियमित नियुक्ति के लिए पात्र न होने की स्थिति में, उन्हें नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर, उस तारीख से, जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी डीओपीटी द्वारा आबंटित अपने संवर्ग विशेष में कार्यभार ग्रहण करेंगे, सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

(मुद्रा एवं सिक्का)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2006

सं. 1/1/2006-करेंसी-I (एस.पी.पी.)--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद के नियमित उपमहाप्रबंधक और विभाग प्रमुख, श्री पी. एन. राडकर को 16 फरवरी, 2006 अपराह्न से एफआर 56 के संयोजन से पठित सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 48ए के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। तीन माह की नोटिस अवधि की छूट के लिए भी सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

पी. के. शर्मा, अवर सचिव (करेंसी-I)

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. ए- 32014/1/2006/प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री वी. के. जैन को वित्त

मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक ग्रेड "ए" एंड "बी" (मर्ज्ड) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) ग्रेड में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 13 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री वी. के. जैन की तदर्थ नियुक्ति उन्हें पद पर इस ग्रेड में नियमित तौर पर बने रहने या नियमित नियुक्ति पर चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 'ए' एंड 'बी' (मर्ज्ड) ग्रेड में वरीयता का दावा प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 सितम्बर 2006

सं. ए-12023/4/2006 प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्री एस. बार्थवाल, भा. प्र. से. (बिहार : 1989) को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 15 सितम्बर, 2006 के अपराह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक (डी.जी., सी.सी.आई.) कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. 17/2006 (ए-19011/14/2005-स्था.)--श्री डी. पी. सिंह, आई. ए.एस. (यूपी : 70) सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, 30 सितम्बर 2006 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

चन्द्र भान, निदेशक

दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 18/2006 (ए-19011/16/2006-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री ए. के. सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमपी: 72) को 30 सितम्बर, 2006 के अपराह्न से सचिव, वस्त्र मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्द्र भान, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2006

सं. ए-19011/7/2006-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री सी. एल. कौल, के. स. से. के अधिकारी, को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 31.8.2006 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर उप सचिव (के. स. से. की प्रवर कोटि) नियुक्त करते हैं।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 11 सितम्बर 2006

सं. ए.-32011/01/2005-प्रशा. I (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.06.2006, 10.07.2006 तथा 01.09.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25/2004-सी.एस.-I के अनुसरण में वरिष्ठता कोट के अंतर्गत वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित किए जाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नामांकन होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियमित सहायकों को 6,500--10,500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 08.09.2006 से अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री के. श्रीनिवासु, बायोटेक्नोलोजी विभाग
2. श्री ए. के. वशिष्ठ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
3. श्री रागेश कान्त, बायोटेक्नोलोजी विभाग

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

दिनांक 13 सितम्बर 2006

सं. ए.-12023/02/99-प्रशा I (ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के एक स्थायी अनुभाग

अधिकारी, श्री बी. के. महान्ता को 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में जमा 300/- रुपये विशेष वेतन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में डैस्क अधिकारी के रूप में 12.09.2006 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. ए.-19014/18/84-प्रशा. 1 (ए)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने पर 30 सितम्बर, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

1. डा. मधु फुल्ल, वैज्ञानिक "जी"
2. श्री जे. पी. भाटिया, अवर सचिव

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. ए.-19018/03/2002-स्था.--राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डा. अभिजीत लाहिड़ी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.09.2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

नानक चन्द, उप-सचिव

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. बीटी/सीओ. 06/004/2005-पीपीवीसी--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) की शर्तों और इस विषय पर जारी की गई पहली अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, जैवप्रौद्योगिकी विभाग के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित विषय मामलों पर उन्हें एतद्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी पदनामित करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष	विषय वस्तु
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती प्राची सरूप	उप-सचिव	24365972	प्रशासन, राजभाषा, आईपीआर सहित स्थापना से संबंधित सभी मामले
2.	डॉ. टी.एस. राव	वैज्ञानिक 'जी'	24364065	मानव आनुवंशिकी; टीका कार्रवाई कार्यक्रम सहित चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले
3.	श्री एस. एल. गोविंदवार	वैज्ञानिक 'जी'	24363665	जैवविविधता एवं पर्यावरण जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले

1	2	3	4	5
4.	डॉ. (श्रीमती) रेणु स्वरूप	वैज्ञानिक 'जी'	24360064	जैवसंसाधनों, पौध उतक संवर्धन, राष्ट्रीय जैवसंसाधन विकास बोर्ड से संबंधित सभी मामले
5.	डॉ. एस. आर. राव	वैज्ञानिक 'जी'	24360295	सभी तकनीकी समन्वय मामले
6.	डॉ. के. एस. चर्क	वैज्ञानिक 'एफ'	24369614	कृषि जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले
7.	डॉ. टी. बी. रामनैया	वैज्ञानिक 'एफ'	24363029	औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी, जैवसुरक्षा, आरसीजीएम, बायोटेक पार्कों से संबंधित सभी मामले
8.	डॉ. (श्रीमती) सुमन गोविल	वैज्ञानिक 'एफ'	24369610	जैवप्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास से संबंधित सभी मामले
9.	डॉ. टी. मदनमोहन	वैज्ञानिक 'एफ'	24362788	जैव सूचना प्रणाली से संबंधित सभी मामले
10.	डॉ. ए. एस. निनावे	वैज्ञानिक 'एफ'	24363726	जल कृषि एवं समुद्री जैवप्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ग्रामीण विकास के जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामले
11.	डॉ. हामिदा आबदि	वैज्ञानिक 'एफ'	24363501	महिला विकास से संबंधित सभी मामले
12.	श्री अरविन्द दुग्गल	वैज्ञानिक 'एफ'	24361215	आधारभूत अनुसंधान, एफआईपीबी से संबंधित सभी मामले
13.	डॉ. राजेश कपूर	वैज्ञानिक 'एफ'	24360745	खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा, आरसीजीबी से संबंधित सभी मामले
14.	डॉ. मोहम्मद असलम	वैज्ञानिक 'एफ'	24363057	चिकित्सीय एवं खुशबूदार पौधों, रेशमकीट जैवप्रौद्योगिकी और आइबीएसडी; उत्कृष्टता केन्द्र से संबंधित सभी मामले
15.	डॉ. शैलजा वैद्य गुप्ता	वैज्ञानिक 'ई'	24363748	अवसंरचना यूनेस्को सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सभी मामले
16.	डॉ. ए. के. रावत	वैज्ञानिक 'डी'	24363656	पशु जैवप्रौद्योगिकी, जैवकीटनाशकों/फसल प्रबंधन से संबंधित सभी मामले
17.	डॉ. अलका शर्मा	वैज्ञानिक 'डी'	24363699	स्टेम सेल जीव विज्ञान; जैवइंजीनियरिंग एवं जीनोम विश्लेषण से संबंधित सभी मामले

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. ए-12025/137/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. विमलेश धर पाण्डेय का दिनांक 22.5.2006 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. विमलेश धर पाण्डेय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 सितम्बर 2006

सं. ए-12025/213/94-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राम चन्द्र को 21.9.1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2,200--4,000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. राम चन्द्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. ए-22012/2/2006-स्थापना-III--एन.एस.एस.ओ. (एफ.ओ. डी.), त्रिवेन्द्रम के दिनांक 3.8.2006 के कार्यालय आदेश संख्या 12015/3/2006-आई.एस.एस. के तहत भारतीय सांख्यिकी सेवा के एन.एफ.एस.जी. के अधिकारी श्री जेम्स मेथ्यू ने उक्त संगठन से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरण होने के फलस्वरूप और दिनांक 8.9.2006 को पूर्व कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त करने के बाद दिनांक 11.9.2006 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. ए-38013/01/2006-स्थापना-I--अधिवर्षितावय हो जाने पर श्री नन्द किशोर मखीजा, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 30 सितम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2006

सं. 19011/404/2006-स्था.-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में एक नियमित अधिकारी डॉ. जोगिन्दर सिंह जो वर्तमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर अपर आयुक्त (फसल) के पद पर कार्यरत हैं, को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48क के तहत 6 सितम्बर, 2006 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 19011/415/2006-स्था.-V--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (सहकारिता/ऋण) श्री एम.एस. तलवार 30.9.2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 32011/4/2005-स्थापना-II/स्थापना-V--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित उप निदेशक (सहकारिता/ऋण) श्री पी. संपथ को 19 सितम्बर, 2006 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (सहकारिता/ऋण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. 15012/5/2006-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस विभाग के श्री के. आर. नायर, अनुभाग अधिकारी 30 सितम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. पीना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. 2-2/2005-मा.प्र.--राष्ट्रपति, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय), मुम्बई के श्री के. राजमोहनन, मेकेनिकल मैरीन इंजीनियर को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर 31.08.2006 अपराह्न से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं. 5-29/2005--केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल की संविधियों में प्रथम संशोधन जो 8.9.2005 को हुई प्रबंध बोर्ड की बैठक में अनुमोदित तथा कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-5-29/2005-सीएयू दिनांक 14.3.2006 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो गये हैं तथा सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित किये जाते हैं।

क . खंड सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
	कुलपति	
1. खंड 2(2)	खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में कुलाध्यक्ष के एक नामित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक और पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव शामिल होंगे और कुलाध्यक्ष का नामित इस समिति का संयोजक होगा।	2(2)(1) खंड 2(1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: (i) सचिव, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार – अध्यक्ष (ii) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव – सदस्य (iii) कुलाध्यक्ष का नामित व्यक्ति इस समिति का संयोजक होगा
2. 2(4)	कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:	2(4)कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह आगे पाँच वर्ष की अवधि तक पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
	बशर्ते इसके कि कुलाध्यक्ष किसी भी कुलपति को उसकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी अपने पद पर बने रहने का निर्देश दे सकता है किंतु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी	2(4) पैरा 3 हटा दिया गया

जैसा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

3. 2(5) कुलपति की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी :—
(iii) कुलपति ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए, यात्रा भत्ते का हकदार होगा।
 4. 2(5)(vi) नया प्रावधान
 5. 2(5)(vii) नया प्रावधान
 6. 3(1) कुलपति के अधिकार एवं कर्तव्य
कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियों प्रदान करने के लिए अयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
 7. 3(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलवाने का अधिकार होगा।
 8. कालेजों /संकायों के अध्यक्ष
खंड 4(1)नया प्रावधान
- 2(5) (iii) कुलपति ऐसी दरों से जो भारत सरकार द्वारा सचिव, भारत सरकार के समकक्ष अधिकारी के लिये नियत की जाए, यात्रा और अन्य भत्ते का हकदार होगा। इसके अलावा सेवा में आने तथा त्यागने समय वह भारत सरकार के सचिव स्तर के समकक्ष अधिकारी के लिये अनुमत दरों से स्थानांतरण यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा।
- 2(5)(vi) कुलपति भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत एवं गृह यात्रा रियायत के हकदार होंगे।
- 2(5)(vii) कुलपति भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्यलय छोड़ने के समय छुट्टी नकदीकरण के लाभ का हकदार होगा।
- 3(1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियों प्रदान करने के लिए अयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
- 3(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तार शिक्षा परिषद् और वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलवाने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो संबंधित कालेज का भी अध्यक्ष होगा। तथापि किसी संकाय में एक से अधिक कालेज हो तो कुलपति किसी एक अध्यक्ष को संकायाध्यक्ष नामांकित कर सकते हैं।

9. खंड महाविद्यालय के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की 4(1) महाविद्यालय के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा महाविद्यालय के नियुक्ति बोर्ड द्वारा संविधियों के खंड 18 के प्रोफेसरों में से पाँच वर्ष की अवधि के लिए की अनुसार इस उद्देश्य के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
10. नया प्रावधान संकायाध्यक्ष किराया मुक्त एवं असज्जित आवास के हकदार होंगे।
परन्तु संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु होने पर 4(1) पैरा 2 परन्तु संकायाध्यक्ष/बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा
11. नया प्रावधान 4(1) संकायाध्यक्ष पाँच वर्षों की अवधि तक पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के हकदार होंगे बशर्ते कि संकाय अध्यक्ष 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ देंगे।
12. 4(3) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय का अध्यक्ष होगा। संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कार्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं।
13. 4(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या महाविद्यालय की समितियों की किसी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा जैसा भी मामला हो किन्तु जब तक उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- 4(4) संकायाध्यक्ष संकाय के अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, अनुसंधान परिषद और विस्तार शिक्षा परिषद का सदस्य होगा।

निदेशक शिक्षा

14. नया प्रावधान 5(1) पैरा 2 निदेशक, शिक्षा किराया मुक्त एवं असज्जित आवास का हकदार होगा।

15. 5(2) निदेशक शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद पर बना रहेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :
परन्तु निदेशक, शिक्षा साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।
निदेशक अनुसंधान
16. नया प्रावधान 5(2) निदेशक शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद पर बना रहेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :
परन्तु निदेशक शिक्षा बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।
17. 6(3) निदेशक, अनुसंधान विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। 6(3) निदेशक, अनुसंधान विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कार्य के निष्पादन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।
18. नया प्रावधान 6(4) निदेशक, अनुसंधान विश्वविद्यालय की अनुसंधान समिति के पदेन सदस्य—सचिव होंगे
19. निदेशक, विस्तार शिक्षा नया प्रावधान 7(1) पैरा 2 निदेशक, विस्तार शिक्षा किराया मुक्त एवं असज्जित आवास के हकदार होंगे।
20. 7(2) निदेशक विस्तार शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे और वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
परन्तु विस्तार शिक्षा निदेशक साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेंगे। 7(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
परन्तु विस्तार शिक्षा निदेशक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेंगे।
21. 7(3) निदेशक, विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। 7(3) निदेशक, विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कार्य के निष्पादन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा
22. नया प्रावधान 7(4) निदेशक, विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय

की विस्तार शिक्षा परिषद के पदेन सदस्य
सचिव होंगे ।

कुलसचिव

23. खंड 8(1) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।
24. नया प्रावधान 8(2) पैरा 2उसे अधिकतम पाँच वर्षों के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है ।
25. 8(3) पैरा 3 बशर्ते इसके कि कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो । 8(3) हटा दिया गया
26. नया प्रावधान 8(3) पैरा 4 किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने की स्थिति में उसका कार्यकाल, परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होगा ।
27. 8(7)इ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का प्रबंध और पर्यवेक्षण करना 8(7)इ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का प्रबंध करना
- नियंत्रक
28. खंड 9(1) नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा । 9(1)नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए संविधियों के खंड 18 के अंतर्गत यथावत गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का

पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

29. नया प्रावधान 9(1) पैरा 2 नियंत्रक को भी अधिकतम पाँच वर्षों की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है ।
30. 9(3) नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो अध्यक्षों द्वारा निर्धारित की जायेंगी । 9(3) पैरा 1 नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो अध्यक्षों द्वारा निर्धारित की जायें । यदि किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाती है तो उसकी सेवावधि, परिलब्धियां और अन्य शर्तें प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार होंगी ।
31. 9(3) परन्तु यह और कि नियंत्रक, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो । 9(3) पैरा 3 हटा दिया गया
32. 9(6) नियंत्रक ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जा सकते हैं जो संविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं । ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जा सकते हैं जो संविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या उसे बोर्ड या कुलपति द्वारा समय समय पर सौंपे जाए ।

विभागाध्यक्ष

33. खंड 10 प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य और कार्य तथा 10(1) पैरा 1 प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा की

नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

जायेगी, जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य और कार्य तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

वह अध्ययन के लिये संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिये अनुसंधान निदेशक, विस्तार शिक्षा के लिये विस्तार शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा। तथापि संकायाध्यक्ष संबंधित कालेजों के विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी होगा।

34. 10(1) पैरा 2 बशर्ते किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर है तो विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रोफेसरों में से कुलपति की सिफारिश पर नियुक्ति किया जाएगा :
- 10(1) पैरा 2 परन्तु यदि किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर है तो विभागाध्यक्ष प्रोफेसरों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा :
35. 10(1) पैरा 3 बशर्ते इसके कि ऐसे विभाग के मामले में, जहां केवल एक प्रोफेसर है बोर्ड को कुलपति की सिफारिश पर प्रोफेसर को या एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा।
- 10(1) पैरा 3 बशर्ते इसके कि ऐसे विभाग के मामले में, जहां केवल एक प्रोफेसर है कुलपति को प्रोफेसर को या एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा।
36. 10(1) पैरा 4 बशर्ते कि किसी ऐसे विभाग में जहां कोई आचार्य नहीं है बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- 10(1) पैरा 4 हटा दिया गया
37. 10(1) पैरा 5 बशर्ते इसके कि यदि किसी प्रोफेसर या रीडर नहीं है तो संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- 10(1) पैरा 5 बशर्ते इसके कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा या कुलपति के अनुमोदन से महाविद्यालय में किसी विभागाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जायेगा।

38. 10(6) नया प्रावधान
पुस्तकालयाध्यक्ष 10(6) विभागाध्यक्ष बासठ साल की उम्र में सेवा निवृत्त होगा।
39. खंड 11 (1) पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। 11(1) पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा संविधियों के खंड 18 के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
40. 11(2) प्रत्येक पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं। 11(2) पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।
- बोर्ड का गठन, अधिकार एवं कार्य**
41. 12(1) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य के कृषि और वन विभागों के प्रभारी सचिवों में से दो सचिव जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रम द्वारा कुलाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे; 12(1)(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य के कृषि/वन/पशुपालन/मत्स्य/बागवानी विभागों के प्रभारी सचिवों में से तीन सचिव जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुलाध्यक्ष द्वारा वर्णानुक्रम द्वारा नामित किए जाएंगे
बशर्ते कि एक विशेष समय पर एक राज्य से एक से अधिक सचिव नहीं रहेंगे।
42. 12(1) (iii) दो प्रख्यात वैज्ञानिक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे; 12(1)(iii) तीन प्रख्यात वैज्ञानिक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे;
43. 12(1) (iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रख्यात व्यक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे 12(1)(iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात व्यक्ति जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

44. 12(i) (ix) कोई उद्योगपति या विनिर्माता जिसे कृषि विकास का विशेष ज्ञान हो, कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। 12(i) हटा दिया गया
45. 12(1) (x) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती हो। 12(1)(x) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती है कुलपति द्वारा नामित की जायेगी।
46. 12(1)xiii कम से कम संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष पदाधिकारी तीन व्यक्ति जो क्रमशः केंद्रीय सरकार के कृषि, पशुपालन और वानिकी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों। 12(1)xiii कम से कम संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष पदाधिकारी दो व्यक्ति, जो क्रमशः भारत सरकार के कृषि व, पशुपालन विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों संबंधित सचिव द्वारा नामित किये जायेंगे।
47. नया प्रावधान 12(1)(xiv) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सचिव का एक नामित व्यक्ति।
48. 12(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की समयावधि दो वर्ष होगी 12(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की समयावधि तीन वर्ष होगी
49. 12(4) (iv) कुलाधिपति और कुलपति के अलावा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी मंजूर करने तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना; 12(4)(iv) हटा दिया गया
50. 12(4) (xiii) परीक्षकों और संचालकों को नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो हटाना तथा उनकी फीस, उपलब्धियों, और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् निर्धारित करना। 12(4)(xiii) परीक्षकों, विशेषज्ञों, सलाहकार, परामर्शदाताओं तथा विशेष कार्य अधिकारी की फीस, मानदेय, उपलब्धियों, और यात्रा भत्ते निर्धारित करना।
51. 12(4) (xviii) दौरा प्रोफेसरों, प्रतिष्ठित प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का निर्धारण करना और 12(4) (xviii) दौरा प्रोफेसरों, प्रतिष्ठित प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं तथा विशेष कार्य अधिकारी/विद्वानों की नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और

शर्तों का निर्धारण करना।

बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति

52. 13. बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी
13. बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी

विद्या परिषद् का गठन और शक्तियाँ

53. विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे —
54. 14(1) कुलपति — पदेन सदस्य
- 14(1) (i) कुलपति — पदेन अध्यक्ष
55. 14(1) (vii) पाँच विशिष्ट शिक्षक जिन्हें विश्वविद्यालय के बाहर के विभिन्न संकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित किया जाएगा ;
- 14(1) (vii) कुलपति द्वारा नामित दो विशिष्ट वैज्ञानिक जिन्हें विश्वविद्यालय के बाहर से कुलपति द्वारा सहयोजित किया जाएगा ;
56. 14(1) (viii) विभागों के सात अध्यक्ष जो कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे ;
- विभागों के सात अध्यक्ष प्रत्येक संकाय से कम से कम एक कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे
57. 14(1) (ix) शिक्षा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि ; पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा।
- 14(1) (ix) पूर्वोत्तर परिषद् के कृषि विज्ञान में विशेषज्ञ को नामित किया जायेगा।
58. 14(1) (x) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सदस्य—सचिव
- 14(1)(x) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सचिव
59. 14(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी
- 14(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी
60. 14(3)(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थाओं में
- 14(3)क शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थओं में सहकारी अध्ययन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार और मूल्यांकन के

सहकारी शिक्षा अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निर्देश देना।

बारे में निदेश देने हेतु विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण करना।

61. 14(ब) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना, अन्तर्विद्यापीठ आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना।

14(ब) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना, और शैक्षणिक मामलों पर समितियाँ नियुक्ति करना।

विद्या परिषद् की बैठक की गणपूर्ति

62. 15) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

15) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्ययन बोर्ड

63. खंड प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा
16(1)

16(1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा

64. 16(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जाएगी।

16(2) प्रत्येक संकाय के अध्ययन बोर्ड का गठन निम्नलिखित तरीके से होगा:

16(i) संकायाध्यक्ष — अध्यक्ष

16(ii) निदेशक अनुसंधान — सदस्य

16(iii) निदेशक विस्तार शिक्षा — सदस्य

16(iv) कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के संकाय के सभी विभागाध्यक्ष — सदस्य

16(v) कुलपति द्वारा नामित विद्या परिषद् का प्रतिनिधि जो विशेष संकाय का न हो — सदस्य

16(vi) कुलपति द्वारा नामित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से बाहर के कृषि शिक्षा पद्धति के दो प्रख्यात वैज्ञानिक — सदस्य

- 16(vii)स्नातकोत्तर शिक्षा (अंतिम वर्ष) का सर्वाधिक ओ जी पी ए अंक पाने वाला छात्र – सदस्य
- (viii)संकाय का सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) – सदस्य
65. नया प्रावधान 16(2)(ix) निदेशक शिक्षा – सदस्य
66. 16(3) अध्ययन बोर्ड का कार्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधान के विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य उपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से सिफारिश करना है 16(3) अध्ययन बोर्ड का कार्य विभिन्न उपाधियों के लिए निर्धारित किये जाने वाले विद्या परिषद के पाठ्यक्रम को संबंधित संकाय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये सिफारिश करना तथा निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त अनशंसा करना है ।
67. 16(3) बशर्ते इसके अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कार्यों (घ) का पालन इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा (घ) हटा दिया गया
- वित्त समिति
68. खंड वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य 17(1) होंगे नामतः :-
- (i) कुलपति 17(1) (i)कुलपति - अध्यक्ष
- (ii) वित्तीय सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 17(1) (ii)वित्तीय सलाहकार(डेयर) या उप सचिव के स्तर का उनका नामांकित व्यक्ति
69. 17(2) वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों की होगी 17(2) वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के तीन सदस्यों की होगी ।

चयन समितियां

70. 18(2) नीचे दी गई सारणी के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति में कुलपति, निदेशक शिक्षा, अनुसंधान निदेशक, विस्तार शिक्षा निदेशक, कुलाध्यक्ष का एक नामित तथा उक्त सारणी के कॉलम (2) में सदृश प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी**वर्तमान प्रावधान****प्रोफेसर**

(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह प्रोफेसर हो ;

(ii) कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफेसर

(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बोर्ड द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्य-परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उसके विशेष ज्ञान या रुची के कारण की गई हो

एसोसिएट प्रोफेसर / सहायक प्रोफेसर

(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष

(ii) एक प्रोफेसर जो कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा

(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बोर्ड द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्य-परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर का

संशोधित प्रावधान**निदेशक, संकायाध्यक्ष**

(i) कुलपति या उसका मनोनीत अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत व्यक्ति

(iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से कुलपति के स्तर के तीन प्रख्यात वैज्ञानिक कुलपति द्वारा नामित होंगे।

प्रोफेसर/समकक्ष

(i) कुलपति या उसका मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत

(iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष सदस्य

(iv) कुलपति द्वारा नामित अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक सदस्य

बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से विभागाध्यक्ष स्तर के तीन प्रख्यात विषयों के विशेषज्ञ (कार्यरत या सेवानिवृत्त) कुलपति

संबंध होगा, उसके विशेष ज्ञान या रुचि के द्वारा नामित होंगे।

कारण की गई हो

कुल सचिव, नियंत्रक

एसोसिएट प्रोफेसर / सहायक

प्रोफेसर/समकक्ष

(i) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट इसके दो सदस्य; और

(i) कुलपति या उसका मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत व्यक्ति

(iv) पुस्तकालय अध्यक्ष

(iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष सदस्य

दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे

(iv) कुलपति द्वारा नामित अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक सदस्य

(v) कालेज के संकायाध्यक्ष, निदेशक या विभागाध्यक्ष

(v) प्रोफेसर स्तर के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष

तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, दो बोर्ड द्वारा और एक विद्या-परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी उस विषय में उसके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो

(vi) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से कुलपति प्रोफेसर स्तर के दो प्रख्यात शिक्षक या वैज्ञानिक (कार्यरत या सेवानिवृत्त) कुलपति द्वारा नामित होंगे।

कुल सचिव, नियंत्रक, वैज्ञानिक

(i) कुलपति या उसका मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष

(ii) कुलाध्यक्ष का मनोनीत व्यक्ति

(iii) कुलपति द्वारा नामित संकायाध्यक्ष या निदेशक

(iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से संबंधित विषयों के दो विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामित होंगे।

वर्तमान प्रावधान

संशोधित प्रावधान

71. 18(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसका नामनिर्दिष्ट चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा
- बशर्ते कि चयन समिति की बैठकें कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और खंड (2) के अधीन बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सुविधानुसार पूर्व परामर्श के उपरान्त ही बुलाई जाएंगी :
- बशर्ते कि चयन समिति की कार्यवाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक:—
- 18(3) (क) जब कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार ही हो, तो उनमें से कम से कम तीन व्यक्ति बैठक में भाग लें और
- (ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन हो तो उनमें से कम से कम दो व्यक्ति बैठक में भाग लें
- 18(3) (क) हटा दिया गया
- 18(3) (ख) हटा दिया गया
72. 18(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में दी जाएगी ।
- 18(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया साक्षात्कार से पहले समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी
73. 18(7) (i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक लंबी अवधि के लिए है तो यह आगे आने वाले खंडों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :
- बशर्ते कि कुलपति इससे विश्वस्त हैं कि कार्य के हित में रिक्ति को भरना आवश्यक है तो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थायी समिति द्वारा पूर्णतः अस्थायी आधार पर छह मास की
- 18(7) (i) बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति को किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से 6 माह के लिये फिर 6 माह आगे विस्तार देने का अधिकार होगा ।

अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष की अवधि से कम के लिए है तो वह रिक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश से भरी जाएगी जिस में संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा :

बशर्ते इसके कि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

परन्तु यह और कि मृत्यु या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों की अचानक आकस्मिक रिक्तियों के मामले में संकायाध्यक्ष, संबधित विभागाध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) किसी भी स्थिति में अस्थायी रूप में नियुक्ति किया गया कोई भी अध्यापक, यदि इन संविधियों के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की एक नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में तब तक बना रहेगा या जब तक कि उसे अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए तदनंतर स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं कर लिया जाता, जैसा भी मामला हो।

74.

नया प्रावधान

18(8) गैर शैक्षणिक कर्मचारी हेतु चयन समिति का गठन संविधियों में निर्धारित नहीं

होने पर अध्यादेशों से निर्धारित होंगे।

मान्यताप्राप्त शिक्षक

75. 21(1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएँ ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए 21(1)क) विभिन्न संकायों और अनुसंधान में उनके समकक्ष या विस्तार शिक्षा के निदेशक, संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की अर्हताएँ ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी।
ख) अशैक्षणिक कर्मचारी की अर्हताएँ ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए
76. 21(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति में किये जायेंगे जैसी अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाए 21(2) हटा दिया गया
77. 21(3) किसी भी शिक्षक को अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रीति में इस उद्देश्य के लिये गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना मान्यता नहीं दी जाएगी। 21(3) हटा दिया गया
78. 21(4) किसी शिक्षक की मान्यता की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा नियत की जाएगी। 21(4) हटा दिया गया
79. 21(5) विद्या परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई से अनधिक बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक से मान्यता वापस ले सकती है। 21(5) हटा दिया गया
- बशर्ते कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति का निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में कारण बताओ नोटिस न दिया गया हो और जब तक उसके

आक्षेप पर, यदि कोई है और किसी साक्ष्य जो उनके समर्थन में वह प्रस्तुत करें या विद्या परिषद् द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता।

शिक्षकों की सेवा की शर्तें व आचरण संहिता आदि

80. खंड 23(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षिक स्टाफ का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 23(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें व निबंधन एवं आचरण

81. 24 विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के अलावा विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।
- 24) विश्वविद्यालय के सभी गैरशैक्षिक कर्मचारी तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में संविधियों, समय समय पर बनाये गये अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का निष्कासन

82. 26(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड, और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, शिक्षक को या शैक्षिक स्टाफ के सदस्य को अथवा जैसा भी मामला हो अथवा अन्य कर्मचारी को कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।
- 26(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड, और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, शिक्षक को या शैक्षिक स्टाफ के सदस्य को अथवा अन्य कर्मचारी को जैसा भी मामला हो कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।
83. 26(3) उपर्युक्त के सिवाय, बोर्ड या जैसा भी मामला 26(3) उपर्युक्त के सिवाय, बोर्ड या नियुक्ति

हो नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान किया गया हो।

प्राधिकारी जैसा भी मामला हो किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान किया गया हो, अन्यथा नहीं।

84. 26 यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो, बोर्ड को
(6)ख या जैसा भी मामला हो नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा

26(6)ख यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो, बोर्ड को या नियुक्ति प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख को प्रभावी होगा जिस तारीख को बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी जैसा भी मामला हो द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी जैसा भी मामला हो द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

सलाहकार समिति

- 85 खंड 31 विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था की एक सलाहकार समिति होगी जिसमें पंद्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे जिनमें अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त तीन शिक्षक होंगे जिनमें महाविद्यालय या संस्था का संकायाध्यक्ष भी है, और बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे कार्यकारी अध्यक्ष

31) हटा दिया गया

86. 33. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति द्वारा बैठक में अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति का प्रावधान न किया गया हो अथवा जब सभापति के लिए इस प्रकार का प्रावधान हो किंतु वह अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य ऐसे बैठक

33. जहां विश्वविद्यालय की किसी समिति की बैठक में अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति का प्रावधान न हो अथवा जब सभापति अनुपस्थित हो या कुलपति ने लिखित में कोई व्यवस्था नहीं की हो तो उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता

की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को चुन लेंगे ।
 करने के लिए अपने में से एक को चुन लेंगे ।

सदस्यता और पद के लिये निवासी की

शर्त

87. 36. इन संविधियों में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, जो भी कोई व्यक्ति जो सामान्यतः भारत का निवासी न हो विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र होगा ।
36. इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए जो भी, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी न हो विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा ।

छात्र परिषद्

88. खंड 39(1) विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे ।
- 39(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये एक छात्र परिषद् होगी जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को खेलकूद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बादविवाद आदि सहित छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्य कलापों के संबंध में सिफारिश करेगी और उसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे:
- (i) निदेशक शिक्षा, जो छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा ;
- (ii) वे सभी छात्र जिन्होंने पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के दौरान अध्ययन, ललित कला, क्रीड़ा और विस्तार कार्य के क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं
- (iii) अध्ययन, क्रीड़ा और व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विचारों के प्रतिभा के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले छात्र
- (iv) संकायाध्यक्ष द्वारा नामित पॉच विभागाध्यक्ष
- (v) छात्रावास प्रीफेक्ट
- (vi) प्रत्येक कक्षा से पूर्व शैक्षणिक सत्र में सर्वाधिक ओ जी पी ए अंक पाने वाला छात्र
- (vii) छात्र कल्याण अधिकारी सदस्य— सचिव
- बशर्ते इसके कि विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से संबंधित कोई विषय छात्र परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार अनुमति प्रदान की जाए, और उसे ऐसी किसी भी बैठक के दौरान विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, जब भी वह मामला विचारार्थ लिया जाता है ।

89. 39(2) छात्र परिषद् के कार्यों में अध्ययन, छात्र कल्याण और सामान्यतया विश्वविद्यालय के

कार्यकरण के संबंध में महत्व के अन्य विषयों

के बारे में विश्वविद्यालय के समुचित 39(2) हटा दिया गया

प्राधिकरणों को सुझाव देना होगा और ऐसे

90. 39(3) सुझाव सर्वसम्मति से दिए जाएंगे

छात्र परिषद् शैक्षिक वर्ष में कम से कम एक 39(3) छात्र परिषद् कम से कम प्रत्येक बार अधिमानता: उस वर्ष के प्रारम्भ में अपनी सेमेस्टर में अपनी बैठक करेगी। बैठक करेगी।

91. 43. अन्य संस्थानों एवं संगठनों से सहयोग नया प्रावधान

43. विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के क्षेत्रीय परिसर, बारापानी, मेघालय को सम्मिलित करते हुये किसी भी शैक्षणिक और अनुसंधान में उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ विश्वविद्यालय को अपने स्नातकोत्तर व पी एच डी डिग्री प्रदान करने के आंशिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु स्नातकोत्तर अनुसंधान सहयोगात्मक कार्यक्रम चलाने के लिये समझौता ज्ञापन के द्वारा अनुबंध करने का अधिकार होगा।

अनुसंधान परिषद का गठन व कार्य

92. 44(1) नया प्रावधान

44(1) कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों एवं कार्यक्रम के सामान्य पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान परिषद होगी। अनुसंधान परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे

i) कुलपति अध्यक्ष

ii) निदेशक विस्तार शिक्षा सदस्य

iii) निदेशक, शिक्षा सदस्य

iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष सदस्य

v) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 6 राज्यों में से प्रत्येक से राज्य सरकार का कम से कम निदेशक स्तर के 6 मनोनीत व्यक्ति

vi) विश्वविद्यालय के अनुसंधान दल के सभी समन्वयकर्ता सदस्य

vii) कुलपति द्वारा 3 साल हेतु नामांकित दो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सदस्य

viii) निदेशक अनुसंधान सदस्य सचिव

44(2) अनुसंधान परिषद साल में एक बार कम से कम बैठक करेगी।

44(3) अनुसंधान परिषद की बैठक में अनुसंधान परिषद के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

यदि त्यागपत्र या अन्य कारणों से रिक्ति उत्पन्न होती है तो बाकी समय के लिये उसे भर दिया जायेगा।

विस्तार शिक्षा परिषद का गठन व कार्य

93. 45(1) नया प्रावधान

45(1) कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा नीतियों एवं कार्यक्रम के सामान्य पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय में एक विस्तार शिक्षा परिषद होगी। विस्तार शिक्षा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे

i) कुलपति — अध्यक्ष

ii) निदेशक अनुसंधान — सदस्य

iii) निदेशक शिक्षा — सदस्य

iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष सदस्य

v) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 6 राज्यों में से प्रत्येक से राज्य सरकार का एक कम से कम निदेशक स्तर का मनोनीत व्यक्ति

vi) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों से 6 कृषक प्रतिनिधि एवं कुलपति द्वारा 3 साल हेतु नामांकित एक महिला समाज सेविका— सदस्य

vii) कुलपति द्वारा 2 साल हेतु नामांकित विश्वविद्यालय के बाहर से प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सदस्य

viii) निदेशक विस्तार शिक्षा सदस्य सचिव

45(2) विस्तार शिक्षा परिषद साल में एक बार कम से कम बैठक करेगी।

45(3) विस्तार शिक्षा परिषद की बैठक में विस्तार शिक्षा परिषद के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

94.

46(1) नया प्रावधान

46(1) पेंशन, उपदान एवं सामान्य भविष्यनिधि देने के संबंध में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सभी नियमित कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 तथा सामान्य भविष्यनिधि (केंद्रीय सेवायें) नियम 1960 के प्रावधानों से नियंत्रित होंगे।

46(2) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 तथा सामान्य भविष्यनिधि (केंद्रीय सेवायें) नियम 1960 में भारत सरकार द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

46(3) पेंशन विनियम (कम्प्यूटेशन) के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन विनियम) नियम 1981 लागू होगा।

46(4) कुलपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पेंशन संस्वीकृति अधिकारी तथा (2) पेंशन प्राधिकरण अधिकारी होंगे।

46(5) पेंशन अदायगी नियंत्रक कार्यालय में केंद्रीकृत और नियंत्रित होगी।

डी. के. छतवाल, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

सं. ए.-32014/1/2006-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्रीमती संतोष जयन्त जो विद्युत मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग के ग्रेड 'सी' की नियमित आशुलिपिक हैं, को 1 सितम्बर 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'ए तथा बी' (विलयित) (निजी सचिव) में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

सं. ए.-12022/6/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री बी. के. सिन्हा, भा. प्र. से. (बिहार) : 75) को 28.09.2006 के पूर्वाह्न से पंचायती राज मंत्रालय में रुपये 22,400-550-24,500/- के वेतनमान में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की अवधि की शेष अवधि अर्थात् 15.12.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2006

सं. ए.-12024/3/2005-स्था.-III.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2006-सी.एस.-II दिनांक 31.05.2006 के अनुसरण में राष्ट्रपति जी ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सी.एस.एस.एस. काडर की श्रीमती गीता कुमारी टंडन, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को उच्चतर शिक्षा विभाग के काडर में 1.9.2006 (पूर्वाह्न) से 31.12.2006 तक 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 2006

सं. एफ. 36-15/2006-प्रौढ़ शिक्षा-6--राष्ट्रपति, डॉ. रूप किशन भट्ट को 17 अगस्त 2006 से 22 अप्रैल 2008 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. डॉ. भट्ट वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्य वेतन एवं भत्तों के पात्र होंगे।

एम. पी. तिवारी, अवर सचिव

दिनांक 31 सितम्बर 2006

शुद्धिपत्र

दिनांक 25.9.2006 की अधिसूचना संख्या 36-15/2006-प्रौढ़ शिक्षा-6 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है :--

सं. एफ 36-15/2006-प्रौढ़ शिक्षा-6--राष्ट्रपति जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के अंतर्गत डॉ. रूप कृष्ण भट्ट को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 17 अगस्त 2006 से 22 अप्रैल 2008 तक प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ. भट्ट मौजूदा नियमों के अनुसार सामान्य वेतन एवं भत्तों के लिए पात्र होंगे।

एम. पी. तिवारी, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 सितम्बर 2006

सं. 4-34/2006-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री एम. सी. अरोड़ा को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 5 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उप-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. शंकरन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 4-35/2006-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री ओ. पी. सरोडे, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 29 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेश अरोड़ा, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

सं. 2(2)/2006-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी, ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री आर. सी. जैन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत दिनांक 4.10.2006 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, 26,000/- रुपये के निर्धारित वेतनमान एवं नियमानुसार देय भत्तों में साइबर अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अरुणा नायर, निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 सितम्बर 2006

सं. ए.-39013/1/2006.का. व स्था. I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री नंदा बासुमैत्रेय, कर्मचारी कोड सं. 2354, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, असम राज्य एकक, गुवाहाटी से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी, 1990 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

दिनांक 28 सितम्बर 2006

सं. ए.-39013/1/2006.का. व स्था. I--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री राजीव लाल, कर्मचारी कोड सं. 4685, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, अंडमान निकोबार संघ शासित केन्द्र, मोर्ट ब्लेयर से वैज्ञानिक ग्रेड "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. एन.आई.सी./पी.एफ./32/2006. का. व स्था. I--श्री एच. रविन्द्रनाथ, वैज्ञानिक 'जी' (कर्मचारी कोड सं. 0032), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2006 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

दिनांक 27 सितम्बर 2006

सं. ए.-39013/1/1997-प्रशासन. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री के. एस. श्रीधर, कर्मचारी कोड सं. 3788 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली, से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस. बी." के पद से त्यागपत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै
उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-II)

सं. 4730/एन.आई.सी./2006. का. व स्था. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री हसीन उलहक, कर्मचारी कोड सं.

4730, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली, से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस. बी." के पद से त्यागपत्र दिनांक 8 नवम्बर, 2000 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै
उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-II)

दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. 4554/एन.आई.सी./2006. का. व स्था. II--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री राजेश डी. भावे, (कर्मचारी कोड सं. 4554), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र पुणे, से वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 2006 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै
उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-II)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2006

सं. आर.डब्ल्यू.एपी/(सीई)/55-ई-II (वॉल.-IV)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधिकारी श्री वी. वेलायुथम की सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 26,000/- रुपये निर्धारित) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव के पद पर दिनांक 14.09.2006 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

2. महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव के पद पर, श्री वी. वेलायुथम की तदर्थ नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अध्वधीन है।

डॉ. आर. के. अग्रवाल, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. 7/4/2006-सी.जी.डब्ल्यू.बी.--राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में निम्नलिखित वैज्ञानिक 'घ' को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम अधिकारियों का नाम		पदोन्नति की तारीख सं.
1	2	3
सर्वश्री		
1.	डी. बी. साहा	31.07.2006 (पूर्वा.)
2.	डी. वाई. सिरसीकर	08.08.2006 (पूर्वा.)

1	2	3
3.	टी. एम. हुंसे	31.07.2006 (अप.)
4.	सुशील गुप्ता	01.08.2006 (पूर्वा.)
5.	आर.एन. सिंह	07.08.2006 (पूर्वा.)
6.	पी. सी. चन्द्र	27.07.2006 (पूर्वा.)
7.	के. पी. सिंह	25.07.2006 (अप.)
8.	ए. एम. खान	17.08.2006 (पूर्वा.)
9.	एन. वर्द राज	04.08.2006 (अप.)

पी. सी. राजगोपालन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

सं. 23/2006, फाइल सं. 22/577/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री एस. मनोहरन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए. एम. : 1975) का दिनांक 04.10.2006 के पूर्वाह्न से 22,400--24,500/- रुपये के वेतनमान में अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय

मुंबई-22, दिनांक 26 सितम्बर 2006

सं. 27/9/2005-स्थापना--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का सं. 22) की धारा 2(सी) के साथ पठित 5(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (का.स.से.श्र.सं.म.), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्री एस.जी. दारव्हेकर, उप महानिदेशक, का.स.से.श्र.सं.म. को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नामतः का.स.से.श्र.सं.म., मुंबई के संबंध में (चूंकि श्री मोइनुल हक, उप महानिदेशक और विद्यमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी दिनांक 30.09.2006 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में श्री असीम के. चक्रवर्ती, निदेशक (औद्योगिक मनोविज्ञान) केन्द्रीय श्रम संस्थान, केन्द्रीय जन सूचना के रूप में कार्य करेंगे।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्रयोजन से, श्री एस. के. सक्सेना, महानिदेशक, का.स.से.श्र.सं.म., मुंबई, वरिष्ठ अधिकारी होंगे।

एन. कृष्णा पिल्लै, अवर सचिव
कृते महानिदेशक

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 29th September 2006

No. A-22012/1/2006-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Ashish Gupta, IPS (UP : 1989) as Director in the Prime Minister's Office, on lateral transfer from SVP National Police Academy, Hyderabad, with effect from the forenoon of 22 September 2006 for the balance period of his Central Deputation i.e. upto 23.7.2009 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. ROY, Under Secy.

The 3rd October 2006

No. A-22012/1/2006-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Shyam Saran, IFS (Retd.) as Special Envoy in the Prime Minister's Office in the rank and pay of Secretary to the Government of India with effect from 1 October 2006 till the negotiations relating to the Indo-US Civilian Nuclear Energy Co-operation are completed.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd October 2006

No. RS.3(viii)/2006/71-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Choudhury Ramakanta Das, Senior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Chief Parliamentary Interpreter in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st October 2006, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Director

No. RS.3(viii)/2006/72-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri K. S. Somashekhar, Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Senior Parliamentary Interpreter in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st October 2006, until further orders.

2. Shri Joe Mathew, who was earlier appointed to officiate as Senior Parliamentary Interpreter on ad-hoc basis *vide* Notification No. RS.3(viii)/2005/39-Perl. dated 5th July, 2005 has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 1st October 2006, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 27th September 2006

No. F. 15/28/2004/GN.5729/AN-I.—Smt. Bharti Tripathi is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay

of Rs. 10,000-325-15,200 on the personal staff of Chairman, Committee on External Affairs (Dr. Laxminarayan Pandey) with effect from 5th August, 2006 until further orders.

2. The appointment of Smt. Bharti Tripathi to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on External Affairs.

3. She will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on External Affairs.

R. C. AHUJA, Joint Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 9th October 2006

No. A-38012/4/2006-Ad.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Dharam Singh Thakur, Senior Principal Private Secretary, Cabinet Secretariat retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2006.

R. S. YADAV, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 29th September 2006

No. F. 6 (1949)/2005-Adm. I.—On attaining the age of superannuation, Shri R. C. Gupta, CSS, Under Secretary (ad hoc), Planning Commission retires from Government service w.e.f. the afternoon of 30.09.2006.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 5th October 2006

No. F. 6 (1959)/2006-Adm.I.—In continuation of earlier Notification No. A-12025/17/2004-Adm. I dated 4.1.2006, it is hereby further notified to redesignate the post of Deputy Secretary held by Shri S. K. Saha, IRSEE (90) to that of Director as a measure personal to him w.e.f. 29.09.2006. His tenure of Central deputation will now be for five years which will count w.e.f 2.1.2006 and in view of this redesignation, his tenure as Director will be for the balance period i.e. upto 01.01.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 6th October 2006

No. 181/3/2006 (Gr 'B').—The Competent Authority hereby appoints Ms. Pushpa N. Lakra (ST), officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the Secretariat of the

Election Commission of India, as Section Officer on regular basis with effect from 01.10.2006 and until further orders.

2. Further, the above appointment is subject to final outcome of the CWP No. 8225-43/2003—Shri Tapan Datta & Others Vs. Election Commission of India presently pending in the Hon'ble Delhi High Court.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 4th October 2006

No. I-18011/10/2006-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of RAJASTHAN with effect from the dates mentioned against their names.

S. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Nitin Deep Blaggan, IPS (RJ : 2003)	01-09-2005
2.	Hinglajdan, IPS (MRJ : 2003)	05-09-2005

RAJINDER KUMAR, Section Officer

New Delhi, the 06th October 2006

No. I-14011/5/2006-IPS. I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 27.09.2006, approved the Select List of 2006, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 14.07.2006, containing the names of the following State Police Service Officers of Jammu & Kashmir, towards filling up three substantive vacancies in the Jammu & Kashmir Cadre of IPS during 2006.

Select List—2006

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Bashir Ahmad Yattoo	01-04-1957
2.	Israr Ahmad Khan	17-11-1953
3.	Nisar Ahmad	25-06-1957

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/5/2006-IPS. I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Jammu & Kashmir Police Service to the Indian Police Service on Probation and to allocate them to the cadre of Jammu & Kashmir under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

Select List—2006

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Bashir Ahmad Yattoo	01-04-1957
2.	Israr Ahmad Khan	17-11-1953
3.	Nisar Ahmad	25-06-1957

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 9th October 2006

No. I-14011/20/2006-IPS. I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 27.09.2006, approved the Select List of 2006, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 10.07.2006, containing the names of the following State Police Service Officer of Karnataka, towards filling up one substantive vacancy in the IPS Cadre of Karnataka during 2006.

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	N. Shivaprasad (ST)	15-05-1958

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/20/2006-IPS. I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Karnataka Police Service to the Indian Police Service on Probation and to allocate him to the cadre of Karnataka under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

Select List—2006

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	N. Shivaprasad (ST)	15-05-1958

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi, the 6th October 2006

No. 20/G/2809-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri Prabhanshu Kamal, IAS (MP : 85), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the afternoon of 29th September 2006, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 11th October 2006

No. I-14012/20/2006-IPS.IV.—On his selection for appointment to the Indian Administrative Service on the basis of his qualifying the Civil Services Examination, 2005, the President is pleased to accept the technical resignation of Shri Randeep. D, IPS Probationer of 2005 batch, belonging to the IPS Cadre of Karnataka, appointed to the Indian Police Service on the basis of his qualifying the Civil Services Examination, 2004, from the Indian Police Service with effect from the afternoon of 26th August, 2006.

A. K. YADAV, Director (Police)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 3rd August 2006

No. 2/16/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Sushma Singh, IAS (JH : 72) as Secretary in the Ministry of Development of North Eastern Region in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the afternoon of 03.08.2006.

S. K. NAYYAR, Dy. Secy.

The 9th October 2006

No. 14/19/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. H. Chinzason as Section Officer in Ministry of Development of North Eastern Region in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 27th July 2006 (AN).

S. K. NAYYAR, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110 067, the 6th September 2006

No. 13019/5/2006-Academy (Desk).—The President is pleased to appoint Dr. B. Ashok, IAS (KL : 98) as Deputy Director, Under Secretary level in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 10,650-325-15,850/- w.e.f. 3.7.2006 (forenoon) for a period of three years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th September 2006

No. 05/PB-I/2006.—On attaining the age of superannuation, Shri Rajinder Kumar, an Officer belonging to the Integrated Grades II & III of IFS (B) and working as Section Officer, relinquished the charge of his duties from the Ministry on 31.8.2006.

JALADHI MUKHERJEE, Admn. Officer (PB. I & III)

New Delhi, the 19th September 2006

No. 04/PB-III/2006.—The President is pleased to appoint the under mentioned Officer of Grade I of the Stenographers' Cadre of IFS(B) to officiate in the grade of Principal Private Secretary in the Stenographers' Cadre of IFS(B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/11/2004 dated the 31st August 2006.

S. No.	Name of the Officer	Date of promotion
1.	Shri Inderjit Singh	21.8.2006
2.	Shri Anil Kumar Gupta	21.8.2006
3.	Shri Chander Prakash-I	21.8.2006
4.	Shri Vijay Kumar Mehta	21.8.2006
5.	Shri T. Bhaskaran	21.8.2006
6.	Shri B. R. Keshava Prasad	30.8.2006
7.	Ms. K. Rattan Prabha	23.8.2006
8.	Shri T. N. B. Raghavan	21.8.2006

2. The above named officers have assumed charge of the post of Principal Private Secretary with effect from 21.8.2006 except Shri B. R. Keshava Prasad and Ms. K. Rattan Prabha who assumed charge of their post on 30.8.2006 and 23.8.2006 respectively.

KUNAL ROY, Dy. Secy. (PB)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 5th October 2006

No. D-III/460/CF-23/2000.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Mahendra K. Sanghi as Honorary Consul of the Republic of Portugal in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Mahendra K. Sanghi comprises the state of Maharashtra.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

No. D-III/460/CF-33/2006.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Ashish Saraf

as Honorary Consul of Commonwealth of Bahamas in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ashish Saraf comprises the Territory of Delhi.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 12th July 2006

No. A-12026/1/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Ms. R. Usha, Under Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Chennai, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 4th May, 2006 (F.N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-12026/1/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri D. C. Jain, Section Officer, Debts Recovery Tribunal, Jaipur, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal Ahmedabad, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 25th May, 2006 (F.N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 13th July 2006

No. A-12026/3/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri V. Elisha, Deputy Director, Ministry of Defence, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 16th June, 2006 (F.N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-12026/3/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Surinder Kumar, Section Officer, Regional Research Laboratory, Bhopal, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of two years w.e.f. 30th June, 2006 (F.N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-12026/3/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Smt. Malathi Narayanan, Section Officer, Department of Commerce, to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Delhi, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 4th July, 2006 (F.N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 17th July 2006

No. A-12026/1/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri J. L. Garg, Dy. controller of Accounts, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh, on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, for a period of three years w.e.f. 1st May, 2006 (F.N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 31st August 2006

No. 13/6/2002-DRT.—On acceptance of his resignation, Shri T. Ravi Shankar, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal Hyderabad, has demitted the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 8th August, 2006 (A.N.).

A. THOMAS, Under Secy.

The 4th September 2006

No. 13/2/2004-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, due to administrative exigencies and in public interest, hereby, authorizes Smt. Meena V. Gomber, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Delhi, in addition to her own charge with immediate effect, until further orders, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

No. 18/4/2004-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, due to administrative exigencies and in public interest, hereby, authorizes Shri A. K. Tripathi, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Delhi and Debts Recovery Tribunal, Jaipur in addition to his work relating to two Benches of DRT at Chandigarh, with immediate effect, until further orders, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 29th September 2006

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Section Officers till regular Section Officers become available:—

1. Shri R. S. Guliani
2. Ms. Shashi Kala
3. Ms. Kusum
4. Sh. Satinder Kumar
5. Shri Ashok Aggarwal

2. The continuation of ad-hoc promotion of the above mentioned officers in the post of Section Officer of CSS is purely ad-hoc in nature and will not bestow them any claim for regular appointment and services rendered by them on ad-hoc basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

No. A-19011/255/2005-Estt.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri D. P. Sehrawat, Sr.PPS for a further period of six months up to 31-12-2006 or till a regular Sr.PPS becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The other terms and conditions already in force will remain unchanged.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri J. K. Grover, Assistant of CSS of the Cadre of Ministry of Finance to the Section Officers Grade of CSS purely on ad-hoc basis with effect from 21-09-2006 and up to 31-12-2006 or until further orders which ever is earlier, subject to the following terms and conditions :—

- (a) The ad-hoc appointment being a stop-gap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- (b) Ad-hoc arrangement will continue till regular candidates in the Section Officer's Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In

the event of the ad-hoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, he will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOPT.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy. (Y.I)

(CURRENCY & COINAGE)

New Delhi, the 27th September 2006

No. F. 1/1/2006-Cy. I (SPP).—Consequent upon the acceptance of his application of voluntary retirement by the Competent Authority, Shri P. N. Radkar, a regular Deputy General Manager and Head of Department, Security Printing Press, Hyderabad is allowed voluntary retirement under rule 48-A of CCS (Pension) Rules read in conjunction with FR 56 w.e.f. the afternoon of the 16th February 2006. Approval of the Competent Authority is also conveyed for the waiver of the 3 month's notice period.

P. K. SHARMA, Under Secy. (Y.I)

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 5th October 2006

No. A-32014/1/2006-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri V.K. Jain, Stenographer Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno, Grade A&B (merged) (designated as personal Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on purely ad-hoc basis with effect from the afternoon of 13th September, 2006 initially for the period Up to 31.12.2006.

2. The ad-hoc appointment of Shri V. K. Jain shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (merged) of CSSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 28th September 2006

No. A-12023/4/2006-Ad.IV—The President is pleased to appoint Shri S. Barthwal, IAS (Bihar: 1989), as Director in the office of the Director General, Competition Commission of India (DG, CCI), on deputation basis for a period of one year, in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- with effect from the afternoon of 15th September 2006.

N.K. VIG, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 29th September 2006

No. 17/2006 (A-19011/14/2005-Estt.)—Shri D.P. Singh, IAS (UP : 70), Secretary to the Government of India, Ministry of Textiles, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th September, 2006.

CHANDER BHAN, Director

The 3rd October 2006

No. 18/2006 (A-19011/16/2006-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri A.K. Singh, IAS (MP:72), as Secretary, Ministry of Textiles with effect from the afternoon of 30th September, 2006.

CHANDER BHAN, Director

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 14th September 2006

No. A-19011/7/06-Estt.—The President is pleased to appoint Shri C.L. Kaul, an Officer of the Central Secretariat Service as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 31.08.2006 and until further orders.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 11th September 2006

No. A-32011/01/2005-Admn.I(A).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Seniority Quota and nomination to Ministry of Science & Technology Vide DP&T's O.M. No. 5/25/2004-CS.I dated 05.06.06, 10.07.06 and 01.09.2006, the President pleased to appoint the following regular Assistants as Section Officers in the

scale of pay of Rs. 6500—10500 in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology with effect from 08.09.2006 :—

1. Shri K. Srinivasu, DBT

2. Shri A.K. Vashist, DST

3. Shri Ragesh Kant, DBT

S.P. KATNAURIA, Under Secy.

The 13th September 2006

No. A-12023/02/99-Admn. I(A).—The President is pleased to appoint Shri B.K. Mahanta, a permanent Section Officer of CSS Cadre of the Ministry of Science & Technology as Desk Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 plus Rs. 300/- p.m. as Special Pay, in the Department of Science & Technology with effect from the forenoon of 12.09.2006 for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

The 29th September 2006

No. A. 19014/18/84. Admn.I(A).—The President is pleased to retire the following officers from the Government service on attaining the age of superannuation on 30th September, 2006 (AN).

1. Dr. Madh Phull, Scientist 'G'

2. Shri J.P. Bhatia, Under Secretary

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 29th September 2006

No. A-19018/03/2002-Estt.—The president is pleased to retire Dr. Abhijit Lahiri, Scientist 'G', Department of Scientific and Industrial Research from the Government service on attaining the age of superannuation on 30.09.2006 (AN).

NANAK CHAND, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 29th September 2006

No. BT/CO.06/004/2005-PPVC.—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 and in supersession of earlier Notification issued on the subject matter, the following officers of Department of Biotechnology are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the subject matters specified against each of their names:—

S.No.	Name of the Officer	Designation	Tele. Nos.	Subject matters
1	2	3	4	5
1.	Smt. Prachi Saroop	Deputy Secretary	24365972	All matters relating to Establishment including Administration, Official Language, IPR.
2.	Dr. T.S. Rao	Scientist 'G'	24364065	All matters pertaining to Medical Biotechnology including Human Genetics, Vaccine Action Programme.
3.	Shri S.L. Govindwar	Scientist 'G'	24363665	All matters relating to Biodiversity & Environment Biotechnology.
4.	Dr. (Ms.) Renu Swarup	Scientist 'G'	24360064	All matters relating to Bioresources; Plant Tissue Culture, National Bioresource Development Board.
5.	Dr. S. R. Rao	Scientist 'G'	24360295	All Technical Cordin. matters.
6.	Dr. K. S. Charak	Scientist 'F'	24369614	All matters relating to Agriculture Biotechnology.
7.	Dr. T. V. Ramanaiah	Scientist 'F'	24363029	All matters relating to Industrial Biotechnology, Biosafety, RCGM, Biotech Parks.
8.	Dr. (Mrs.) Suman Govil	Scientist 'F'	24369610	All matters relating to Human Resource Development in Biotechnology.
9.	Dr. T. Madhanmohan	Scientist 'F'	24362788	All matters relating to Bioinformatics.
10.	Dr. A. S. Ninawe	Scientist 'F'	24363726	All matters relating to Aquaculture & Marine Biotechnology, Biotechnology Programmes for SC/ST and Rural Development.
11.	Dr. (Ms.) Hamida Abdi	Scientist 'F'	24363501	All matters relating to Women Development.
12.	Shri Arvind Duggal	Scientist 'F'	24361215	All matters relating to basic research, FIPB.
13.	Dr. Rajesh Kapur	Scientist 'F'	24360745	All matters relating to : Food & Nutrition Security; RCGB.
14.	Dr. Mohd. Aslam	Scientist 'E'	24363057	All matters relating to Medicinal & Aromatic Plants, Seri Biotechnology & IBSD; Centre of Excellence.
15.	Dr. (Ms.) Shailja V. Gupta	Scientist 'E'	24363748	All matters relating to Infrastructure, International Collaboration including UNESCO, etc.
16.	Dr. A. K. Rawat	Scientist 'D'	24363656	All matters relating to Animal Biotechnology, Biopesticides/Crop Management.
17.	Dr. (Ms.) Alka Sharma	Scientist 'D'	24363699	All matters relating to Stem Cell Biology; Bio-engineering & Genome Analysis.

PRACHI SAROOP, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 3rd October 2006

No. A.12025/137/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bimlesh Dhar Pandey to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22.5.2006 (F.N.) until further orders. Dr. Bimlesh Dhar Pandey is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 6th October 2006

No. A-12025/213/94-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ram Chandra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2,200—4,000/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21-9-94 until further orders. Dr. Ram Chandra is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi-110011, the 19th September 2006

No. A-22012/2/2006-Estt. III.—Consequent upon his transfer from NSSO (FOD), Trivandrum to the Ministry of Health & F.W., New Delhi vide Office Order No. 12015/3/2006-ISS dated 3-8-06, and upon his having been relieved by his previous office on 8-9-06, Shri James Mathew, an NFSG Officer of the Indian Statistical Service has joined, and has subsequently been taken on the strength of this Ministry, as Director, with effect from 11-9-2006 (FN).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 3rd October 2006

No. A-38013/01/2006-Estt. I.—On attaining the age of superannuation, Shri Nand Kishore Makhija, Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2006.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 6th September 2006

No. 19011/404/2006-Estt. II.—The President is pleased to permit Dr. Joginder Singh, a regular officer of the Central

Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, who is presently holding the post of Additional Commissioner (Crops) on deputation in the Department of Agriculture and Cooperation, to retire voluntarily from Government Service with effect from the forenoon of 6th September, 2006 under Rule 48 A of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 3rd October 2006

No. 19011/415/2006-E.V.—On attaining the age of superannuation, Shri M. S. Talwar, Director (Cooperation/Credit) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Department of Agriculture and Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 30-09-2006.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 32011/4/2005-E. II/E.V.—The President is pleased to appoint Shri P. Sampath, a regular Deputy Director (Cooperation/Credit) in the Department of Agriculture & Cooperation as Director (Cooperation/Credit) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis with effect from the forenoon of 19th September, 2006, until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 29th September 2006

No. 15012/5/2006-Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri K. R. Nair, Section Officer in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2006.

P. L. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 5th October 2006

No. 2-2/2005-Fy. Admn.—The President is pleased to allow Shri K. Rajamohanam, Mechanical Marine Engineer, Fishery Survey of India (Head Quarter), Mumbai to retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31-08-2006 A.N.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, the 27th April 2006

No. 5-29/2005-CAU.—The First amendment to Statutes of Central Agricultural University, Imphal approved by the Board of Management in its 13th meeting held on 08-09-2005 as given below in the tabular form has been assented to by the Visitor of the University vide Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education letter No. 5-29/2005-CAU dated 14.3.2006 and is notified for information and necessary action:—

Sl. No.	Clause No.	Existing Provision	Amended Provision
		The Vice-Chancellor	
1.	Clause 2(2)	The Committee referred to in clause (1), shall consist of a nominee of the Visitor, the Director-General of the Indian Council of Agricultural Research and the Secretary to the North-Eastern Council set up under section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971) and the nominee of the Visitor shall be convenor of the Committee;	2(2) (1) The Committee referred to in clause 2(1) shall consist of the following : (i) Secretary, Department of Agricultural Research and Education, Government of India - Chairman (ii) Secretary to North-Eastern Council set up under section 3 of the North-Eastern Council Act, 1971 - Member. (iii) The nominee of the Visitor as Member, who shall also be the Convenor
2.	2(4)	The Vice-Chancellor shall hold office for a term five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for reappointment: Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired to continue in office for such period not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.	2(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, and he shall be eligible for reappointment for a further term of five years, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier 2(4) Para 3 -Deleted
3.	2(5)	The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows :- (iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowance at such rates as may be fixed by the Board.	2(5) (iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and other allowances as per the rate fixed from time to time by the Government of India for the officers

equivalent to the rank of Secretary to Government of India. Further, he shall be entitled to transfer travelling allowances and other allowances as admissible to officers of the rank of Secretary to Government of India for joining and after relinquishing the post.

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 4. | 2(5)(vi) <u>New Provision</u> | 2(5)(vi) - The Vice-Chancellor shall be entitled to Leave Travel Concession and Home Travel Concession as per rules of Government of India. |
| 5. | 2(5)(vii) <u>New Provision</u> | 2(5)(vii) - The Vice-Chancellor shall be entitled to the benefit of leave encashment at the time of laying down the office as per rules of Government of India. |

Powers and duties of the Vice Chancellor

- | | | | |
|----|-------------|---|---|
| 6. | Clause 3(1) | The Vice-Chancellor shall be <i>ex-officio</i> Chairman of the Board, the Academic Council and the Finance Committee and shall in the absence of the Chancellor, preside at the convocations held for conferring degrees. | 3(1) The Vice-Chancellor shall be <i>ex-officio</i> Chairman of the Board, the Academic Council, the Finance Committee, the Research Council and the Extension Education Council and shall in the absence of the Chancellor preside over the Convocation held for conferring degrees. |
| 7. | 3(6) | The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board, the Academic Council and the Finance Committee. | 3(6) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board, the Academic Council, the Research Council, the Extension Education Council and the Finance Committee |

Dean of Colleges/Faculties

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 8. | Clause 4(1) <u>New Provision</u> | 4(1) Each Faculty shall have a Dean who shall also be the head of the College concerned. However, if any Faculty has more than one college, the Vice-Chancellor may nominate one of the Deans as Dean of the Faculty. | |
| 9. | Clause 4 (1) | Every Dean of a college shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professors in the college for a period of five years and he shall be eligible for reappointment: | The Dean of the college shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose as per Clause 18 of the Statutes and he shall be a whole time salaried officer of the University. |

10. **New Provision** The Dean shall be entitled to rent free and unfurnished residential accommodation.

Provided that a Dean on attaining the age of sixty years shall cease to hold office as such : 4(1) Para 2 : Provided that a Dean on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such.

11. **New Provision** 4(1) Para 4 The Dean shall hold the office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment, provided that a Dean on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office.

12. 4 (3) The Dean shall be the head of the college and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the college and shall have such other functions as may be prescribed by the Ordinances. 4(3) The Dean shall be responsible to the Vice-Chancellor for the conduct and maintenance of the standards of teaching in the college/faculty and shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinance.

13. 4 (4) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of Studies or Committees of the college, as the case may be, but shall not have the right to vote there unless he is a member thereof. 4(4) The Dean shall be the *ex-officio* Chairman of the Board of Studies of the Faculty, a member of the Academic Council, the Research Council and the Extension Education Council of the University.

Director Instruction

14. **New Provision** 5(1) Para 2- The Director of Instruction shall be entitled to rent free and unfurnished residential accommodation.

15. 5 (2) The Director Instruction shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment; 5(2)The Director of Instruction shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;

Provided that Director Instruction on attaining the age of sixty years shall cease to hold office as such. Provided that Director Instruction on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such.

The Director of Research

16. **New Provision** 6(1)Para 2 – The Director of Research shall be entitled to rent free and unfurnished accommo-dation

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--|
| 17. | 6(3) | The Director of Research shall be responsible for supervision and co-ordination of research programmes in the University. | 6(3) The Director of Research shall be responsible for supervision and co-ordination of all research programmes of the University and shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties. |
| 18. | New provision | | 6(4) The Director of Research shall be ex-officio Member-Secretary of the Research Council of the University. |

The Director of Extension Education

- | | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| 19. | New Provision | | 7(1) Para 2 – The Director of Extension Education shall be entitled to rent free and unfurnished accommodation |
| 20. | 7 (2) | The Director of Extension Education shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;

Provided that the Director of Extension Education on attaining the age of sixty years shall cease to hold office as such. | 7(2) The Director of Extension Education shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment;

Provided that Director of Extension Education on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such. |
| 21. | 7 (3) | The Director of Extension Education shall be responsible for the supervision and co-ordination of all Extension, Education Programmes in the University. | 7(3) The Director of Extension Education shall be responsible for supervision and co-ordination of all Extension Education Programmes in the University and shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties. |
| 22. | New Provision | | 7(4) The Director of Extension Education shall be <i>ex-officio</i> Member-Secretary of the Extension Education Council of the University. |

Registrar

23. **Clause 8(1)** The Registrar shall be appointed by the Board on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University. 8(1) The Registrar shall be appointed by the Board on the recommendation of a duly constituted Selection Committee under Clause 18 of the Statutes and he shall be a whole time salaried officer of the University. He shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties.
24. **New Provision** 8(2) Para 2 – He may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years.
25. **8(3) Para 3** Provided further that a Registrar shall, notwithstanding his attaining the age of sixty years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier. 8(3) Para 3 – Deleted
26. **New Provision** 8(3) Para- 4 In case of a person appointed on deputation his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.
27. **8(7)(e)** to arrange for and superintend the examinations of the University in accordance with the manner prescribed by the Ordinances; 8(7)(e) - To arrange for the examinations of the University in accordance with the manner prescribed by the ordinances/ notifications.

The Comptroller

- | | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| 28. | Clause 9(1) | The Comptroller shall be appointed by the Board on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University. | 9(1) The Comptroller shall be appointed by the Board on the recommendation of a duly constituted Selection Committee under Clause 18 of the Statutes and he shall be a whole time salaried officer of the University |
| 29. | New Provision | | 9(1) Para 2 - The Comptroller may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years. |
| 30. | 9(3) Para 1 | The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed by the Ordinances: | 9(3)Para 1 - The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed by the Ordinances. In case of a person being appointed on deputation, his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the standard terms of deputation. |
| 31. | 9(3) Para 3 | Provided further that the Comptroller shall, notwithstanding his attaining the age of sixty years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier. | 9(3) Para3 – Deleted |
| 32. | 9(6) | The Comptroller shall perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances: | (b) perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or as may be required, from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor. |

Heads of Departments

33. Clause 10(1) Para 1 Each Department shall have a Head, who shall be not below the rank of an Associate Professor and whose duties and functions and terms and conditions of appointment shall be prescribed by the Ordinances: 10(1) Para 1 – each Department shall have a Head, appointed by Vice-Chancellor who shall be not below the rank of an Associate Professor and whose duties and functions and terms and conditions of appointment shall be prescribed by the Ordinances.
- He shall be responsible to the Dean for teaching, to Director of Research for research to Director of Extension Education for extension education work. However, the Dean shall be the administrative controlling officer of the Heads of Departments in college concerned.
34. 10(1) Para 2 Provided that if there is more than one Professor in any Department, the Head of the Department shall be appointed by the Board on the recommendation of the Vice-Chancellor from among the Professors: 10(1) Para 2 – Provided that if there is more than one Professor in any Department, the Head of the Department shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professors.
35. 10(1) Para 3 Provided further that in the case of departments where there is only one Professor, the Board shall have the option to appoint, on the recommendation of the Vice-Chancellor, either the Professor or an Associate Professor as the Head of the Department: 10(1) Para 3 – Provided that in the case of Department where there is only one professor, the Vice-Chancellor shall have the option, to appoint either the Professor or an Associate Professor as the Head of the Department.
36. 10(1) Para 4 Provided also that in a Department where there is no Professor, an Associate Professor may be appointed as the Head of the Department by the Board on the recommendation of the Vice-Chancellor: 10(1) Para 4– Deleted

- | | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| 37. | 10(1)
Para 5 | Provided also that if there is no Professor or Reader, in a Department, the Dean of College concerned shall act as the Head of the Department. | 10(1) Para 5 Provided also that in a Department where there is no Professor or Associate Professor in a Department, the Dean of the College shall act as the Head of the Department or with the approval of the Vice-Chancellor assign the duty to any other Head of the Department of the College. |
| 38. | New Provision | | 10(6) The Head of Department shall retire at the age of sixty two years. |

Librarians

- | | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 39. | Clause
11(1) | Every Librarian shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University. | 11(1) Every Librarian shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose under clause 18 of the Statutes and he shall be a whole-time salaried officer of the university. |
| 40. | 11(2) | Every Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Board. | 11(2) Every Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor. |

Conditions ,Powers and Functions of the Board

- | | | | |
|-----|-----------------|--|---|
| 41. | Clause
12(1) | (ii) two secretaries from amongst the secretaries in charge of the Departments of Agriculture and Forests of a State in the North-Eastern region to be nominated by the Visitor by rotation in alphabetical order to represent that State; | 12(1)(ii) Three Secretaries from amongst the Secretaries in-charge of the Departments of Agriculture / Forest / Animal Husbandry/ Fishery / Horticulture of a State in the North-Eastern Region to be nominated by the Visitor by rotation in the alphabetical order to represent that State.

Provided that there shall not be more than one Secretary from a State in the Board at a particular time. |
| 42. | 12(1) | (iii) two eminent scientists to be nominated by the Visitor; | 12(1)(iii) Three eminent scientists to be nominated by the Visitor |

- | | | | |
|-----|-------|--|--|
| 43. | 12(1) | (iv) two distinguished persons representing Agro-based industries to be nominated by the Visitor; | 12(1)(iv) One distinguished person representing Agro-based industries or a manufacturer having a special knowledge in agricultural development to be nominated by the Visitor |
| 44. | 12(1) | (ix) an industrialist or a manufacturer having special knowledge in agricultural development to be nominated by the Visitor; | 12(1)(ix) Deleted |
| 45. | 12(1) | (x) one woman social worker representing woman social organization in the North-Eastern Region; | 12(1)(x) one woman social worker representing woman social organization from the North-Eastern Region to be nominated by the Vice-Chancellor |
| 46. | 12(1) | (xiii) three persons not below the rank of Joint Secretary representing respectively the Departments of the Central Government dealing with Agriculture, Animal Husbandry and Forestry; and | 12(1)(xiii) Two persons not below the rank of Joint Secretary representing respectively the Departments of Government of India dealing with the Agriculture and Animal Husbandry to be nominated by the concerned Secretary to the Government of India |
| 47. | | New Provision | 12(1)(xiv) A nominee of the Secretary representing the Department of Agricultural Research & Education, Government of India |
| 48. | 12(2) | The term of office of the members of the Board, other than <i>ex-officio</i> members, shall be two years. | 12(2) The term of office of the members of the Board, other than <i>ex-officio</i> members, shall be three years |
| 49. | 12(4) | (iv) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence; | 12(4)(iv) Deleted |

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 50. | 12(4) | (xiii) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council; | 12(4)(xiii) to fix fees, honorarium, emoluments and travelling allowances of examiners / experts / consultants / advisors / Officers on Special Duty etc. |
| 51. | 12(4) | (xviii) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants, and Scholars and determine the terms and conditions of such appointment; | 12(4) (xviii) to provide for appointment of Visiting Professor(s), Emeritus Professor(s) Consultant and, Officers on Special Duty/Scholars etc. and to determine the terms and conditions of such appointment |

Quorum for meetings of the Board

- | | | | |
|------|-----------|--|--|
| 52.. | Clause 13 | Seven members of the Board shall form a quorum for a meeting of the Board. | Five members of the Board shall form the quorum for a meeting of the Board |
|------|-----------|--|--|

Constitution and Powers of the Academic Council

- | | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 53. | Clause 14(1) | The Academic Council shall consist of the following members, namely:- | |
| 54. | 14(1) | (i) the Vice-Chancellor, ex-officio member; | 14(1)(i) the Vice-Chancellor <i>ex-officio</i> -Chairman |
| 55. | 14(1) | (vii) five outstanding teachers to be co-opted from outside the University representing different Faculties; | 14(1)(vii) two eminent scientists to be co-opted from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor |
| 56. | 14(1) | (viii) seven heads of the Department to be nominated by the Vice-Chancellor; | 14(1)(viii) seven Heads of the Departments, at least one from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor |

- | | | | |
|-----|--------|---|--|
| 57. | 14(1) | (ix) the Education Officer or his representative to be nominated by the North Eastern Council set up under Section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971); | 14(1)(ix) one nominee of North eastern Council with specialization in Agricultural Sciences. |
| 58. | 14(1) | (x) the Registrar of the University, <i>ex-officio</i> Member Secretary; | 14(1)(x) the Registrar of the University, <i>ex-officio</i> Secretary |
| 59. | 14 (2) | The term of office of the members of the Academic Council other than <i>ex-officio</i> members shall be two years. | 14(2) The term of office of the members of the Academic Council, other than <i>Ex-officio</i> members, shall be three years |
| 60. | 14(3) | (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instructions, co-operative teaching among colleges and institutions, evaluation of research or improvements in academic standards; | 14(3)(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges and institutions, evaluation and improvements in academic standards. |
| 61. | | (b) to bring about inter-college co-ordination to establish or appoint committees or boards for taking up projects on an inter-college basis; | (b) to bring about inter-college co-ordination and establish or appoint committees on academic matters |

Quorum for the meeting of the Academic Council

- | | | | |
|-----|--------------|---|--|
| 62. | Clause
15 | Nine members of the Academic Council shall form a quorum for a meeting of the Academic Council. | 15 One third members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council |
|-----|--------------|---|--|

Board of Studies

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 63. | Clause
16(1) | Each Department shall have a Board of Studies. | 16(1) Each Faculty shall have a Board of Studies |
| 64. | 16 (2) | The constitution of a Board of Studies and the term of office of its members shall be provided by the Ordinances. | <div style="margin-left: 20px;">16(2)(i) Dean of Faculty – Chairperson</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(ii) Director of Research – Member</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(iii) Director of Extension Education, Member</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(iv) All Heads of Departments of the Faculty not below the rank of Associate Professor – Members</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(v) One representative of the Academic Council not belonging to the particular faculty to be nominated by the Vice-Chancellor</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(vi) Two eminent scientists from Agricultural Education system not belonging to the Central Agricultural University to be nominated by the Vice-Chancellor.</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(vii) One final year Post Graduate student with Highest Overall Grade Point average(OGPA) – Member</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(viii) Assistant Registrar (Academic) of the faculty - Member</div> <div style="margin-left: 20px;">16(2)(ix) Director of Instruction- Member</div> |
| 65. | | New Provision | |

- | | | | |
|-----|--------|--|--|
| 66. | 16 (3) | The functions of the Board of Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned Board in the manner prescribed by the Ordinances- | 16(3) The functions of the Board of Studies shall be to recommend to the Academic Council course curriculum to be prescribed for various degree(s) to be offered by the concerned Faculty and to make suitable recommendations for the teaching of the prescribed/approved course. |
| 67. | | (d) Provided that the above functions of a Board of studies shall, during the period of three years immediately after the commencement of the Act, be performed by the Department | (d) Deleted |

Finance Committee

- | | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 68. | Clause 17(1) | The Finance Committee shall consist of the following members, namely:- | |
| | | (i) the Vice-Chancellor | 17(1)(i) The Vice-Chancellor – Chairman |
| | | (ii) the Financial Adviser, Indian Council of Agricultural Research; | 17(1)(ii) The Financial Adviser (DARE) or his/her nominee not below the rank of Deputy Secretary. |
| 69. | 17 (2) | Five members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee. | 17(2)) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for meeting of the Finance Committee |

Selection Committees

- | | | | |
|-----|---------------|--|---|
| 70. | Clause 18 (2) | The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, Director Instruction, Director of Research, Director of Extension Education, a nominee of the Visitor and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table | 18(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of members as specified in the corresponding entries in column 2 of the said Table. |
|-----|---------------|--|---|

1	2
	Existing Provision
Professor	(i) The Head of the Department concerned, if he is a Professor. (ii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (iii) Three persons not in the service of the University, nominated by the Board, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which Professor will be concerned.
Associate Professor/ Assistant Professor	(i) The Head of the Department concerned (ii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor. (iii) Two persons not in the service of the University, nominated by the Board, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge, or interest in, the subject with which the Associate Professor/ Assistant Professor will be concerned.
Registrar, Comptroller	(i) Two members of the Board nominated by it; and (ii) One person not in the service of the University, nominated by the Board.
Librarian	Two persons not in the service of the University, who have special knowledge of the subject of the Library Science / Library Administration to be nominated by the Board.
Dean of college, Directors or head of other institution maintained by the University	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Board and one by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is being provided by the college or institution.

TABLE

1	3
	Amended Provisions
Directors/Deans	(i) Vice-Chancellor or his nominee- Chairman (ii) One nominee of the Visitor (iii) Three eminent scientists not below the rank of Vice-Chancellor or equivalent (serving/retired) to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of six names approved by the Board.

Professors/ Equivalent	<ul style="list-style-type: none"> (i) Vice-Chancellor or his nominee – Chairman (ii) One nominee of the Visitor (iii) Dean of the concerned Faculty – Member (iv) Director of Research or Director of Extension Education or Director of Instruction to be nominated by Vice-Chancellor – Member (v) Three eminent subject matter specialists not below the rank of Head of Department or equivalent (serving or retired) to be nominated by the Vice-Chancellor out of a panel of six names approved by the Board – Members
Associate Professor/ Asstt. Professor/ Equivalent	<ul style="list-style-type: none"> (i) Vice-Chancellor or his nominee- Chairman (ii) One nominee of the Visitor (iii) Dean of the concerned faculty – Member (iv) Director of Instruction or Director of Research or Director of Extension Education to be nominated by Vice-Chancellor (v) Head of the concerned Department not below the rank of Professor (vi) Two eminent teachers/ scientists not below the rank of Professor or equivalent (serving or retired) to be nominated by the Vice-Chancellor out of panel of six names approved by the Board
Registrar/ Comptroller/ Librarian	<ul style="list-style-type: none"> (i) Vice-Chancellor or his nominee – Chairman (ii) One nominee of the Visitor (iii) One Director/Dean to be nominated by the Vice-Chancellor (iv) Two experts in the concerned subject to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel of six names approved by the Board - Members

Existing Provisions**Amended provisions**

71. 18 (3) The Vice-Chancellor, or in his absence, his nominee shall preside at the meetings of a selection Committee ;

Provided that the meetings of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the persons nominated by the Board under clause (2) :

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless, 18(3) Para 3 - Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least two members, not in the service of the University are present in the meeting

18(3)(a) – where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Board is four in all, at least three of them attend the meeting; and 18(3)(a) Deleted

(b) where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Board is three in all, at least two of them attend the meeting. 18(3)(b) Deleted

72. 18(5) The procedure to be followed by a Selection Committee in making recommendations shall be laid down in the Ordinances. 18(5) The procedure to be followed by the Selection Committee in making recommendations shall be decided by the Committee prior to the interview.

73. 18(7) (i) If the temporary vacancy is for a duration longer than one academic session, it shall be filled on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the foregoing clauses: 18(7)(i) The Vice-Chancellor shall have the authority to appoint a person on adhoc basis for period not exceeding six months extendable by a further period of six months with the approval of the Board.

Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interest of work it is necessary to fill the Vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis by the local Selection Committee referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.

(ii) If the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the college concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor:

Provided that if the same person hold the offices of the Dean and the Head of the Department, the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor:

Provided further that in case of sudden casual vacancies of teaching posts caused by death or any other reason, the Dean may, in consultation with the Head of the Department concerned, make a temporary appointment for a month and report to the Vice-Chancellor and the Registrar about such appointment.

(iii) No teacher appointment temporarily shall, if he is not recommended by a regular Selection Committee for appointment under the Statutes, be continued in service on such temporary employment, unless he is subsequently selected by a local Selection Committee or a regular Selection Committee, for a temporary or permanent appointment, as the case may be.

74.

New Provision

18(8) Mode of Constitution of the Selection Committee for non-academic staff, not prescribed in the statutes, shall be prescribed by the Ordinance(s)

Recognised teachers

75. Clause 21(1) The Qualifications of recognized teachers shall be such as may be prescribed by the Ordinances. 21(1) (a) Qualifications of Director, Dean, Professor, Associate Professor and Assistant Professor of different Faculties and their equivalents in Research and Extension Education shall be as prescribed by the Ordinance(s)
- 21(1) (b) Qualifications of Non-Academic Staff shall be prescribed by the Ordinance(s).
76. 21(2) All applications for the recognition of teachers shall be made in such manner as may be laid down in the Ordinances. 21(2) Deleted
77. 21(3) No teacher shall be recognised as a teacher except on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose in the manner laid down in the Ordinances. 21(3) Deleted
78. 21(4) The period of recognition of a teacher shall be determined by the Ordinances made in that behalf. 21(4) Deleted
79. 21(5) The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw recognition from a teacher: 21(5) Deleted
- Provided that no such resolution shall be passed until notice in writing has been given to the person concerned calling up on him to show cause, within such time as may be specified in the notice, why such resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them have been considered by the Academic Council.

Terms and Conditions of service and code of conduct of the Teachers, etc

80. Clause Every teacher and member of the 23(2) Every teacher and other staff of
23 (2) academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the term of which shall be prescribed by the Ordinances

Terms and Conditions of service and code of conduct of other employees.

81. 24 Clause All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.
24. All the non-academic employees of the University, shall in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations as made from time to time

Removal of employees of the University

82. Clause Notwithstanding anything contained 26(2) Notwithstanding anything
26 (2) in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Board in respect of teacher and other academic staff and the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff, or as the case may be, other employees on grounds of misconduct.
- 26(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Board in respect of teacher and other academic staff and the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff, or other employees as the case may be on grounds of misconduct.
83. 26(3) Save as aforesaid, the Board or as the case may be, the appointing authority shall not be, entitled to remove any teacher, member of the academic staff or other employee except for a good cause and after giving three months notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.
- 26(3) Save as aforesaid, the Board or the appointing authority as the case may be, shall not be entitled to remove any teacher, member of the academic staff or other employee except for a good cause and after giving three months notice or on payment of three months salary in lieu thereof.

84. 26(6) (b) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Board or, as the case may be, the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof.
- 26(6)(b) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Board or, the appointing authority as the case may be, or by paying one month's salary in lieu thereof.

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Board or the appointing authority, as the case may be;

Provided that such resignation shall take effect only on the date from which the resignation is accepted by the Board or the appointing authority, as the case may be.

Advisory Committee

85. Clause 31 Every College or institution maintained by the University shall have an Advisory Committee consisting of not more than fifteen persons which shall consist of, among others, three teachers including the Dean of the College or institution, and two teachers of the University nominated by the Board
- 31 Deleted

Acting Chairman

86. Clause 33 When no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from among themselves to preside at such meeting.
- Clause 33 When no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of any Committee or when the Chairman so provided for is absent or the Vice-Chancellor has not in writing made any arrangement, the members shall elect one from among themselves to preside over meeting.

Residence Condition for Membership and Office

87. Clause 36 Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall be eligible to be an Officer of the University or a member of any authority of the University.
- Clause 36 Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall not be eligible to be an Officer of the University or a member of any authority of the University.

Students Council

88. Clause 39(1) There shall be constituted in the college of the University, a Students' Council for every academic year, consisting of—
- 39(1) There shall be, in each College of the University a Students' Council for each academic session for the purpose of making recommendations to the authorities of the University with regard to various activities relating to students welfare, including games, sports, dramatics, debates, cultural activities etc. and such Council shall consist of:
- (i) the Director Instruction who shall be the Chairman of the Students' Council;
 - (ii) all students who have won prizes in the previous academic year in the field of studies, fine arts, sports and extension work;
 - (iii) Twenty students to be nominated by the Academic Council on the basis of merit in studies, sports, activities and all round development of personality;
 - i) The Dean of the College-Chairperson
 - ii) All Hostel Wardens
 - iii) Campus Estate Officer
 - iv) Five Heads of the Departments to be nominated by the Dean
 - v) Hostel Prefects
 - vi) One student from each class/year who has secured the highest Overall Grade Point Average in the previous academic session.
 - vii) Students Welfare Officer – Member Secretary
- Provided that any student of the University shall have the right to bring up any matter concerning the University, before the Students' Council if so permitted by the Chairman, and he shall have the right to participate in the discussions at any meeting when the matter is taken up for consideration.

89. 39(2) The functions of the Students' Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the University in regard to the programmes of studies, students' welfare and other matters of importance in regard to the working of the University in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion. 39(2) Deleted
90. 39(3) The Students' council shall meet at least once in an academic year preferably in the beginning of that year. 39(3) The Students Council shall meet at least once in each semester.

Collaboration with other Institutions and Organisations

91. **New Provision** 43. the University shall have the authority to enter into an agreement through a Memorandum of Understanding with any research and /or academic institution of higher learning, including the Indian Council of Agricultural Research, Regional Complex for North Eastern Hill Region, Barapani (Meghalaya), to conduct collaborative Post Graduate Research Programme to fulfil the partial requirement for the award of Master's and Ph. D. degrees of the University.

Constitution and function of Research Council

92. **New Provision** 44(1) There shall be a Research Council of the University to exercise general supervision over the research policies and programmes of the University in the area of Agricultural and allied disciplines. The Research Council shall consist of the following members :
- | | |
|--|------------------|
| 44(1)(i) The Vice-Chancellor | Chairman |
| (ii) Director of Extension Education | Member |
| (iii) Director of Instruction | Member |
| (iv) All Deans of the Colleges of the University | Members |
| (v) Six nominees of the State Governments not below the rank of Directors one each from the six states of NEH Region - | Members |
| (vi) All Co-ordinators of the Research Teams of the University | Members |
| (vii) Two eminent Agricultural Scientists to be nominated by the Vice-Chancellor for three years | Members |
| (viii) Director of Research | Member Secretary |

44(2) The Research Council shall meet at least once in a year.

44(3) One third member of the Research Council shall form a quorum for the meeting of the Research Council.

44(4) If a vacancy occurs due to resignation or otherwise the same shall be filled up for the remaining period.

Constitution and functions of the Extension Education Council

93.	New Provision	45(1) There shall be an Extension Education Council of the University to exercise general supervision over the Extension Education policies and programmes of the University in the area of Agricultural and allied disciplines. The Extension Education Council shall consist of the following members :
		45(1)(i) The Vice-Chancellor Chairman
		(ii) Director of Research Member
		(iii) Director of Instruction Member
		(iv) All Deans of the Colleges of the University Members
		(v) Six nominees of the State Governments of NEH Region not below the rank of Directors Members
		(vi) Six farmers representatives from the States of NEH Region and one woman social worker to be nominated by the Vice-Chancellor for term of three years Members
		(vii) Two eminent Scientists from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor for two years Members
		(viii) Director of Extension Education Member Secretary
		45(2) The Extension Education Council shall meet at least once in a year.

45(3) One third members of the Extension Education Council shall form a quorum for the meeting of the Extension Education Council.

94. **New Provision**

46(1) All regular employees of Central Agricultural University shall be governed by the provisions of "Central Civil Services (Pension) Rules 1972" and "General Provident Fund (Central Services) Rules 1960", in respect of grant of Pension and Gratuity and G.P. Fund.

46(2) Any change incorporated by Government of India in "Central Civil Services (Pension) Rules 1972" and "General Provident Fund (Central Services) Rules 1960", shall also be applicable to employees of Central Agricultural University.

46(3) In respect of commutation of Pension, the provisions of "Central Civil Services (commutation of Pension) Rules, 1981" shall apply.

46(4) The Vice-Chancellor, Central Agricultural University shall remain (1) Pension Sanctioning Authority and (2) Pension Authorization Authority.

46(5) Pension Payment shall be centralized and controlled by Comptroller's Office.

D.K. Chhatwal
Under Secretary

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th September 2006

No. A-32014/1/2006-E.II.—The President is pleased to appoint Smt. Santosh Jayant, a regular Stenographer Grade 'C' of the Ministry of Power Cadre of CSSS, to the grade of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of the Ministry of Rural Development Cadre of CSSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on an ad hoc basis, with effect from the forenoon of 1st September, 2006 until further orders.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 4th October 2006

No. A-12022/6/2005-Est.—The President is pleased to appoint Shri B. K. Sinha, IAS (BH : 75) as Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22,400-550-24,500/-, w.e.f. the forenoon of 28-09-2006 in the Ministry of Panchayati Raj for the balance period of his central deputation tenure of 5 years i.e. upto 15-12-2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

CHANDER PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th September 2006

No. A. 12024/3/2005-E.III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 31.05.2006, the President is pleased to appoint Smt. Geeta Kumari Tandan, Stenographer Grade 'C' belonging to CSSS cadre of the Ministry of Power, Central Electricity Authority as Private Secretary in the cadre of Department of Higher Education in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on an ad hoc basis w.e.f. 01.09.2006 (forenoon) upto 31.12.2006.

S. N. GUPTA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND
LITERACY)

New Delhi, the August 2006

No. F. 36-15/2006-A.E. 6.—The President is pleased to appoint Dr. Roop Kishen Bhat as Director in the Directorate of Adult Education (DAE) under the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy) on deputation basis with effect from 17th August, 2006 to 22nd April, 2008.

2. Dr. Bhat will be entitled to usual pay and allowances as per the existing rules.

M. P. TIWARI, Under Secy.

The 31st August 2006

CORRIGENDUM

The Notification No. 36-15/2006-A.E.6 dated 25-08-2006 is hereby partially modified as follows :—

No. F. 36-15/2006-A.E. 6.—The President is pleased to appoint Dr. Roop Krishen Bhat as Director in the Directorate of Adult Education (DAE) under the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy) on deputation basis with effect from 17th August, 2006 to 22nd April, 2008.

2. Dr. Bhat will be entitled to usual pay and allowances as per the existing rules.

M. P. TIWARI, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110 001, the 28th September 2006

No. 4-34/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri M. C. Arora, as Deputy Secretary in the Ministry of Women & Child Development in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 5th September, 2006 until further orders.

R. SHANKARAN, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 3rd October 2006

No. 4-35/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri O. P. Srohe, an officer of the Central Secretariat Service (CSS), as Deputy Secretary in the Ministry of Women & Child Development in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 29th September, 2006 until further orders.

MAHESH ARORA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 4th October 2006

No. 2(2)/2006-Pers.I.—The President is pleased to appoint Justice (Retd.) Shri R. C. Jain as Presiding Officer of Cyber Appellate tribunal under Section 49 of the Information Technology Act, 2000 for a period of three years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier with effect from 04.10.2006 (F. N.) in the pay scale of Rs. 26,000/- fixed plus allowances as admissible under the rules.

ARUNA NAYAR, Director

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 26th September 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Nanda Basumatary, Emp. Code-2354, from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB', NIC-Assam State Unit, Guwahati with effect from the afternoon of 28th February, 1990 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

The 28th September 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rajiv Lal, Emp. code-4685, from the post of Scientist "C", NIC-Andaman Nicobar UT Centre, Port Blair with effect from the afternoon of 31st August, 2006 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

The 3rd October 2006

No. NIC/PF/32/2006/P&E-I.—Shri H. Ravindranath, Scientist "G" (Emp. Code : 0032), National Informatics Centre, New Delhi has retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2006 and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

New Delhi-110003, the 27th September 2006

No. 39013/1/1997-Adm.II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. K.S. Sreedhar (Emp. Code No. 3788), from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB', National Informatics Centre-Headquarters, new Delhi, with effect from the afternoon of 08.12.1996 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

No. 4730/NIC/2006-P&E-II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Shri Haseen UI Haq, (Emp. Code No. 4730), from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB', National Informatics Centre-headquarters, new Delhi, with effect from the afternoon of 08.11.2000 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

The 29th September 2006

No. 4554/NIC/2006-P&E-II.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. Rajesh D, Bhawe (Emp. Code No. 4554), from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre-Pune, with effect from the afternoon of 08th September, 2006 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 28th September 2006

No. RW/AP(CE)/55-E.II (Vol. IV)—The President is pleased to appoint Shri V. Velayutham, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' as Director General (Roads Development) & Special Secretary in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) on ad hoc basis in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways with effect from 14.09.2006 (AN) until further orders or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment of Shri V. Velayutham as Director General (Roads Development) & Special Secretary is further subject to the approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

DR. R.K. AGRAWAL, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st September 2006

No. 7/4/2006-CGWB—The President is pleased to appoint the following Scientist 'D' in the Central Ground Water Board to the post of Regional Director in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. the dates Indicated against their names:—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of promotion
	S/Shri	
1.	D.B. Saha	31.07.2006 (FN)
2.	D.Y. Sirsakar	08.08.2006 (FN)
3.	T.M. Hunsc	31.07.2006 (AN)
4.	Sushil Gupta	01.08.2006 (FN)
5.	R.N. Singh	07.08.2006 (FN)
6.	P.C. Chandra	27.07.2006 (FN)
7.	K.P. Singh	25.07.2006 (AN)
8.	A.M. Khan	17.08.2006 (FN)
9.	N. Vardaraj	04.08.2006 (AN)

P. C. RAJAGOPALAN, Under Secy.

New Delhi, the 4th October 2006

No. 23/2006 (F.No. 22/577/2006-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri S. Manoharan, IAS (AM: 1975) as Additional Secretary in the Ministry of Water Resources in the pay scale of Rs. 22400-24500/- with effect from the forenoon of 04.10.2006.

N.K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL FACTORY
ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES

Mumbai-22, the 26th September 2006

No. 27/9/2005-Estt.—In exercise of powers conferred under section 5(1) read with section 2(c) of the Right to

Information Act 2005 (No. 22 of 2005), the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes (D.G.F.A.S.L.I.), Ministry of Labour & Employment designate Shri S.G. Darvhekar, Deputy Director General, D.G.F.A.S.L.I. as Central Public Information Officer (as Shri Moinul Haque, Deputy Director General and the present Central Public Information Officer is retiring on 30.09.2006) in respect of the 'Public Authority' namely, the D.G.F.A.S.L.I., Mumbai. In his absence, Shri Asis K. Chakrabarti, Director (Industrial Psychology), Central Labour Institute, will act as Central Public Information Officer.

Shri S.K. Saxena, Director General, D.G.F.A.S.L.I., Mumbai shall be the senior officer for the purpose of section 19(1) of the said Act.

N. KRISHNA PILLAI, Under Secy.
for Director General